



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 26—जुलाई 2, 2010 (आषाढ़ 5, 1932)

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26—JULY 2, 2010 (ASADHA 5, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

पदोन्नति के लिये तारीख

- 04 मई 2001

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2010

सेना शाखा

सं. 327, दिनांक 28 मई 2010--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष
70 तथा AG/PS-2 (a) पत्र सं. बी/32313/पीसी/एजी/पीएस-2(ए) दिनांकित
23 फरवरी 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके
04 सितम्बर 1999 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में
04 सितम्बर 1999 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-38039डब्ल्यू) (आईसी-56496एम) महाजन महेश बाल,
इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख

- 04 सितम्बर 1999

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में और
इसी कोर्स के वे अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान
किया गया है उनकी परस्पर बरिष्ठता वही रहेगी जो/एसएससी
68 (एनटी) के अधिकारी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र
अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके
04 मार्च 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में
04 मार्च 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-38301एन) (आईसी-64939एक्स) जन्मेजय मिश्र, इन्फैन्ट्री

(एसएस-38348वाई) (आईसी-64941पी) आशीष कुमार दुबे, आर्टी

(एसएस-38408एच) (आईसी-64942एक्स) बी टी रमैया, सिग्नल्स

(एसएस-38413एन) (आईसी-64943ए) सरकार अभिजीत
बिस्वनाथ, एएडी

(एसएस-38442एच) (आईसी-64944एच) अजीत पाल सिंह,
इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख	- 04 मार्च 2000
पदोन्नति के लिये तारीख	- 04 नवम्बर 2001

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में और इसी बैच के वे अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो एसएससी 69 (एनटी) के अधिकारी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 03 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 03 जुलाई 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 03 जुलाई 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-39297एच) (आईसी-65473एम) लालबोर सिंह दिल्ली, इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख	- 01 सितम्बर 2001
पदोन्नति के लिये तारीख	- 01 मई 2003 (इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें सेवा के 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था, उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 20 मार्च 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 20 मार्च 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बटिल, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-40519वाई) (आईसी-66041के) अनुज बिंद्रा, ईएमई

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख	- 20 अप्रैल 2002
पदोन्नति के लिये तारीख	- 20 अप्रैल 2002

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 17 सितम्बर 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बटिल, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-40867ए) (आईसी-66180एन) आशीष अग्रवाल, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-40871एच) (आईसी-66183एफ) रविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40875वाई) (आईसी-66186पी), सम्राट कौशल, आर्टी

(एसएस-41018एल) (आईसी-66270पी) मिलिन्द शर्मा, आर्टी

(एसएस-41056एफ) (आईसी-66294वाई), सरबजीत सिंह, आर्टी

(एसएस-41061एम) (आईसी-66298पी) अमन कुमार, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-41086वाई) (आईसी-66317पी) आशिक ऋषभ, मैक इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नतियों की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 सितम्बर 2004

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 अप्रैल 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 08 मार्च 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 08 मार्च 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बटिल, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-40137पी) (आईसी-65891एफ) चंद्रवंश शर्मा, एओसी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 08 मार्च 2003

पदोन्नति के लिये तारीख - 08 नवम्बर 2003

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 08 मार्च 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 08 मार्च 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बंटित, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-40010एम) (आईसी-65813के) सुंजय कुमार, एएडी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 08 मार्च 2003

पदोन्नति के लिये तारीख - 08 नवम्बर 2003

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 23 नवम्बर 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 23 नवम्बर 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बंटित, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-39644डब्ल्यू) (आईसी-65642एच) अभिजीत मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-39649पी) (आईसी-65643एल) मुकेश कुमार टांक, आर्टी

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 02 मार्च 2002

पदोन्नति के लिये तारीख - 02 नवम्बर 2003

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें सेवा के 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था, उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 19 मार्च 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 19 मार्च 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बंटित, नाम तथा आर्म/सर्विस

(एसएस-41200एल) (आईसी-66378एम) सतीश कुमार गौतम, एसी

(एसएस-41201एन) (आईसी-66379पी) शैलेंद्र सिंह राठौड़, एसी

(एसएस-41204एफ) (आईसी-66381एम) वशीम अहमद, आर्टी

(एसएस-41206एम) (आईसी-66382पी) प्रमोद एम, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41207पी) (आईसी-66383एक्स) पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41208एक्स) (आईसी-66384ए) बंतेइ कुपर सक्मी, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41210पी) (आईसी-66385एच) पुष्कर सिंह सिरौही, एससी

(एसएस-41214एल) (आईसी-66386एल) जगमाल सिंह वाघेला, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41216डब्ल्यू) (आईसी-66387एन) करुणाकर डिमरी, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41217वाई) (आईसी-66388डब्ल्यू) हेमन्त यादव, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-41219के) (आईसी-66389वाई) मनीष जलाल, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41222के) (आईसी-66391डब्ल्यू) अमोत कुमार क्षेत्री, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41226ए) (आईसी-66395एम) ए श्रीनिवासुलू, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41228एल) (आईसी-66396पी) एस अबिलाश नायर, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41229एम) (आईसी-66397एक्स) मिरियाला नवीन, एओसी

(एसएस-41230एच) (आईसी-66398ए) काशिद अमित मधुकर, आर्टी

(एसएस-41231एल) (आईसी-66399एच) राकेश कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41232एन) (आईसी-66400एम) शंकर राम मेनन पी, आर्टी

(एसएस-41233डब्ल्यू) (आईसी-66401पी) कुलवीर सिंह, आर्टी

(एसएस-41234वाई) (आईसी-66402एक्स) राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41239एक्स) (आईसी-66403ए) एल विन्सेंट पैटन, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41241पी) (आईसी-66405एल) सन्नी गिल, एससी

(एसएस-41244एच) (आईसी-66408वाई) आनंद एन, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41246एन) (आईसी-66409एफ) देशमुख जयदीप
 जगन्नाथ, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41248वाई) (आईसी-66410डब्ल्यू) गौरव भटनागर, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41249एफ) (आईसी-66411वाई) सूरज अब्राहाम, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41250डब्ल्यू) (आईसी-66412एफ) मोहन ज्ञानदेव शिंदे,
 आर्टी
 (एसएस-41251वाई) (आईसी-66413के) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41255पी) (आईसी-66415पी) अरविंद सिंह, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41256एक्स) (आईसी-66416एक्स) शिन्दे प्रवीन पोपट,
 इन्फैन्ट्री,
 (एसएस-41258एच) (आईसी-66417ए) अजय दहिया, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41259एल) (आईसी-66418एच) सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41260ए) (आईसी-66419एल) निरंजन, आर्टी
 (एसएस-41263एन) (आईसी-66421एच) अनिल कौशिक, एसी
 (एसएस-41264डब्ल्यू) (आईसी-66422एल) जय गगन मन्हास,
 एओसी
 (एसएस-41267के) (आईसी-66424डब्ल्यू) पंडित चिन्मय महेश
 चन्द्रा, आर्टी
 (एसएस-41268एम) (आईसी-66425वाई) प्रदीप नौटियाल, आर्टी
 (एसएस-41270के) (आईसी-66426एफ) जगजीत सन्धू, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41271एम) (आईसी-66427के) सलम प्रेमजीत सिंह, आर्टी
 (एसएस-41275एच) (आईसी-66429पी) अशोक कुमार तिवारी,
 इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41276एल) (आईसी-66430के) हिमांशु ईस्सर, एसी
 (एसएस-41277एन) (आईसी-66431एम) हरताज सिंह, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41281डब्ल्यू) (आईसी-66432पी) करनी सिंह भाटी, आर्टी
 (एसएस-41283एफ) (आईसी-66433एक्स) रजनीश जोशी, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41284के) (आईसी-66434ए) टीर असुर्थोग, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41286पी) (आईसी-66435एच) विवेक यादव, एसी
 (एसएस-41290एक्स) (आईसी-66437एन) जोसेफ क्रिष्ण टारफिल
 जे, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41295डब्ल्यू) (आईसी-66440एन) जौनू तंग्गपन, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41296वाई) (आईसी-66441डब्ल्यू) सुमित, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41302एफ) (आईसी-66444के) विक्रान्त सिंह, एओसी
 (एसएस-41306एक्स) (आईसी-66447एक्स) विनोद निश्चल, आर्टी

(एसएस-41307ए) (आईसी-66448ए) समिद्ध बनर्जी, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41308एच) (आईसी-66449एच) तनुज सिंह, आर्टी
 (एसएस-41309एल) (आईसी-66450एक्स) दीपक कुमार, एसी
 (एसएस-41310ए) (आईसी-66451ए) सिद्धार्थ शर्मा, एसएससी
 (एसएस-41311एच) (आईसी-66452एच) प्रदीप सहराबत, मैक
 इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41312एल) (आईसी-66453एल) राजपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41317के) (आईसी-66455डब्ल्यू), सौरभ भागवत, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41320के) (आईसी-66456वाई) शैबाल राय चौधरी, आर्टी
 (एसएस-41321एम) (आईसी-66457एफ) नगरकौटी नरेन्द्र सिंह,
 इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41322पी) (आईसी-66458के) अण्णप्पा चिदानन्द
 करजगी, आर्टी
 (एसएस-41324ए) (आईसी-66459एम) बलबीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41328डब्ल्यू) (आईसी-66461के) जय नेगी, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41330एन) (आईसी-66462एम) मनमथ देवरा, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41338ए) (आईसी-66466एच) अजय सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41342एच) (आईसी-66469डब्ल्यू) आनंद कुमार, एसएससी
 (एसएस-41343एल) (आईसी-66470एल) हितेंद्र प्रधान, एओसी
 (एसएस-41345डब्ल्यू) (आईसी-66471एन) उत्सव सिंह, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41347एफ) (आईसी-66472डब्ल्यू) विकास सिंह, आर्टी
 (एसएस-41350एफ) (आईसी-66474एफ) अभिषेक पाल, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41351के) (आईसी-66475के) वाई शरत, आर्टी
 (एसएस-41354एक्स) (आईसी-66477पी) गौरव कुमार, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41356एच) (आईसी-66478एक्स) देवन्दू घोषाल, आर्टी
 (एसएस-41358एन) (आईसी-66480पी) विनोद कुमार, एओसी
 (एसएस-41359डब्ल्यू) (आईसी-66481एक्स) चिपलुन्कर अमैया
 आर, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41360एल) (आईसी-66482ए) रंजीत सिंह भदौरिया,
 इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41361एन) (आईसी-66483एच) नितिन भाटिया, इन्फैन्ट्री
 (एसएस-41363वाई) (आईसी-66484एल) जी राकुल, आर्टी
 उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नतियों की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 19 मार्च 2005

पदोन्नति के लिये तारीख - 19 अक्टूबर 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

बी एस रानडे
कर्नल
कर्नल एमएस-7

थल सेना विभाग

सं. 328, दिनांक 28 मई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कौर

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार गुरदयाल सिंह (जेसी-211640एन), पहले मैक इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट, 07 सितम्बर 2008

सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह (जेसी-418111एन), पहले मैक इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-498657वाई), पहले सिख रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार नरायन सिंह (जेसी-428720एल), पहले पंजाब रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार जिया लाल (जेसी-579166एच), पहले जैक राईफल्स, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार जगरूप चन्द कटोच (जेसी-239484एल), पहले आर्मड कोर, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार अशोक कुमार मौर्या (जेसी-264068एम), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार आर अरुमई सेल्वम (जेसी-306534ए), पहले मद्रास इंजीनियर ग्रुप, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार बिक्रम कुमार (जेसी-429122ए), पहले पंजाब रेजिमेन्ट, 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार चन्द्रिका सिंह कुशवाहा (जेसी-842380एम), पहले नोदल, 14 जुलाई 2008

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-518356वाई), पहले डोगरा रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सरवेश सिंह (जेसी-225400एफ), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार दिम्बेश्वर काकती (जेसी-548009पी), पहले आसाम रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्रा बहादुर सिंह (जेसी-479045एम), पहले राजपूत रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-349129डब्ल्यू), पहले बाम्बे इंजीनियर ग्रुप, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह (जेसी-539189एफ), पहले कुमाऊ रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार मुनी सामी जी (जेसी-663666एल), पहले एएससी, 22 दिसम्बर 2008

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 329, दिनांक 28 मई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों की सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-56602) प्रशांत महालावत, एसी

(आईसी-56603) निशांत शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-56604) राहुल केसर, एडीए

(आईसी-56605) नगीन्दर रावत, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-56606) ए आर रामाकृष्णन, इंजीनियर्स

(आईसी-56609) अमीत संगवान, इंजीनियर्स

(आईसी-56610) गौतम यू देसाई, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56611) दिनेश सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56613) निपुन आनन्द, आर्टी

(आईसी-56614) सुमीत आर्य, आर्टी

(आईसी-56615) हरदीप संधु, इंजीनियर्स

(आईसी-56617) रवि कुमार, एएससी

(आईसी-56619) संदीप कुमार राकेश, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56620) मनिन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56621) सुरिन्दर सिंह मलिक, आर्टी

(आईसी-56622) अमित के शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56623) सलील लामा, एसी

(आईसी-56624) राजेश नमविसार, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-56675) विशाल दुबे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56625) मनीष वाही, आर्टी	(आईसी-56676) देविन्द्र चौधरी, एएससी
(आईसी-56626) विनय डाका, ईएमई	(आईसी-56677) राजेश गुप्ता, इंजीनियर्स
(आईसी-56627) पंकज शर्मा, ईएमई	(आईसी-56678) परमजीत सिंह, एओसी
(आईसी-56630) मनीष शर्मा, आर्टी	(आईसी-56679) संजीत सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-56631) सोनेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-56680) इन्द्र पाल सिंह, एसी
(आईसी-56632) मनोज कुमार, ईएमई	(आईसी-56682) दीपक चौबे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56635) विनय गुप्ता, सिग्नल्स	(आईसी-56683) धर्मेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-56638) दीपक सिसोदिया, ईएमई	(आईसी-56684) सिद्धार्थ वर्मा, इंजीनियर्स
(आईसी-56639) जोय सब्बी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56685) जय सिंह भट्टी, आईएनटी
(आईसी-56640) विवेक रावत, एसी	(आईसी-56686) वी आनन्दन, सिग्नल्स
(आईसी-56641) जितेन कृष्ण कुमार, एडी आर्टी	(आईसी-56687) अनिल कुमार त्रिपाठी, एएससी
(आईसी-56642) विक्रमजीत सिंह नाट, आर्टी	(आईसी-56688) हरदीप सिंह भुल्लर, एसी
(आईसी-56645) नवनीत चैल, आर्टी	(आईसी-56689) संदीप सिंह औलख, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56646) वकील कुमार, आईएनटी	(आईसी-56690) दीपक ऋषि, एओसी
(आईसी-56647) संजीव कुमार आनन्द, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56691) तपस मंडल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56648) सारंग आप्टे, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56692) नीरज सैनी, एएससी
(आईसी-56649) रनजीत कुमार, सिग्नल्स	(आईसी-56693) अनिरुद्ध वाले, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56651) रविन्द्र सिंह चिब, एएससी	(आईसी-56694) गुरुराज कुलकर्णी, आर्टी
(आईसी-56654) देवेन्द्र कुमार मलिक, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56695) के जोशील राज, इंजीनियर्स
(आईसी-56655) सुखजिन्द्र सिंह, ईएमई	(आईसी-56696) निखिल सिन्हा, सिग्नल्स
(आईसी-56656) अमितोज सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56698) अमित अवस्थी, ईएमई
(आईसी-56657) रोहित उनियाल, ईएमई	(आईसी-56703) संदीप सिंह कुमार, ईएमई
(आईसी-56659) पंकज कौशिक, आर्टी	(आईसी-56705) नवरूप सिंह कहलोन, एओसी
(आईसी-56660) सरमा संजीव विजय कुमार, आर्टी	(आईसी-56706) जतीन झींगन, सिग्नल्स
(आईसी-56661) कनवर संदीपपाल सिंह सोढी, सिग्नल्स	(आईसी-56707) विजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56662) कुलविन्द्र सिंह ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56708) सुधीर के पी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56663) अनिल कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री	(आईसी-56709) मनीष कुमार, आर्टी
(आईसी-56665) मनीष जसरोटिया, एएससी	(आईसी-56713) रोहित खन्ना, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56666) हरप्रीत सिंह लाम्बा, ईएमई	(आईसी-56714) विशाल गौन्डी, एसी
(आईसी-56670) अलोक कुमार, एसी	(आईसी-56715) सचिन भूषण, ईएमई
(आईसी-56672) सुमेश पैन्टिया, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-56716) हिमांशु पुन्दिर, इंजीनियर्स
(आईसी-56673) विकास राज गुप्ता, एडी आर्टी	(आईसी-56717) सथीशवर अलागप्पा, एओसी
(आईसी-56674) सुमीत बत्रा, ईएमई	(आईसी-56718) सुदीप चटर्जी, आर्टी

- (आईसी-56723) संदीप मलिक, एएससी
 (आईसी-56724) विपिन बहादुर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56725) अमित सूद, एसी
 (आईसी-56726) इरला रामा नरसिम्मा प्रसाद, एसी
 (आईसी-56727) सैयद फैजल अहमद, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56728) हरमीत सिंह कपूर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56730) अल्हद सुरेह पैधारकर, आर्टी
 (आईसी-56731) संदीप कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-56732) विक्रम सुब्रामन्यम, ईएई
 (आईसी-56733) शशि मघेन श्रीवास्तव, एडी आर्टी
 (आईसी-56734) इन्द्र सिंह चौहान, इंजीनियर्स
 (आईसी-56736) राजवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56737) पुष्कर राज, आर्टी
 (आईसी-56738) सुदीपता घोष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56739) कुलदीप सिंह मेहरा, एएससी
 (आईसी-56740) कृष्ण कांत शर्मा, ईएमई
 (आईसी-56741) मुराई राजेन्द्र सिंह शंकरलाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-56743) लवलेश पनगाल, एओसी
 (आईसी-56744) अजय दलाल, एसी
 (आईसी-56745) जंगवीर लांबा, एएससी
 (आईसी-56746) राजेश कुमार ठाकुर, ईएमई
 (आईसी-56747) विजय पांडे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56748) सुमीत कोह्लर, एडी आर्टी
 (आईसी-56749) धीरज सेठी, आर्टी
 (आईसी-56751) गिरीश उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56752) विनय आनंद जोशी, एएससी
 (आईसी-56754) चन प्रीत सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-56755) परमिन्दर सिंह, आर्टी
 (आईसी-56756) हरप्रीत सिंह, एसी
 (आईसी-56757) मनजिन्दर पाल सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-56758) सवापन सेठी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56759) जनमेजय एस, एएससी
 (आईसी-56760) हरीश कुमार, ईएमई
 (आईसी-56761) अजय तोमर, एओसी
 (आईसी-56762) नरेश कुमार सांगवान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56763) सुधेदर सलीम भुल्का, आर्टी
 (आईसी-56764) एम साई भूषण, आर्टी
 (आईसी-56766) श्याम सिंह शेखावत, एएससी
 (आईसी-56768) प्रीत बलजीत सिंह सरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56769) अंशुमन सक्सेना, एओसी
 (आईसी-56770) रतनदीप दास, आर्टी
 (आईसी-56771) जसविन्दर सिंह राहिल, आर्टी
 (आईसी-56772) प्रागदीश एस, एएससी
 (आईसी-56773) सरावनन जी, ईएमई
 (आईसी-56774) परमजीत सिंह बक्शी, आर्टी
 (आईसी-56775) भालेन्द्र सिंह भुल्लर, आर्टी
 (आईसी-56776) अनाई शंकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56777) प्रशांत शर्मा, एएससी
 (आईसी-56778) पुनीत कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-56780) कनवर रनेशवर सिंह, एडी आर्टी
 (आईसी-56781) शेखर गोयल, ईएमई
 (आईसी-56782) हिमांशु तिवारी, आर्टी
 (आईसी-56783) वक्षी राजीव सम्भुनाथ, एएससी
 (आईसी-56784) तेजवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56785) अभिशय अधिकारी, इंजीनियर्स
 (आईसी-56786) एम एम हुसैन जुनैदी, आर्टी
 (आईसी-56787) गुरकृपाल सिंह, एएससी
 (आईसी-56788) येंगकोक्पम अजीत कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-56790) सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56791) कौसतुभ, आर्टी
 (आईसी-56792) पारस तोमर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56793) योगेश जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56795) प्रोवाल घोष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56796) हर्षवर्धन सिंह, एओसी
 (आईसी-56797) जितेन्द्र सिंह, ईएमई
 (आईसी-56798) कुमार उमाशंकर, एडी आर्टी
 (आईसी-56799) संजीव कोहली, आर्टी
 (आईसी-56800) प्रवीन कुमार, ईएमई

- (आईसी-56801) विपुल सैनी, एसी
- (आईसी-56802) राहुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56803) अनुजेन्द्र सिंह अंतल, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56804) सुखविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
- (आईसी-56806) सुवीर सेठ, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56808) के अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56811) प्रभात शंकर चन्द्र शेखर, सिग्नल्स
- (आईसी-56812) राहुल मोहन सेठ, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56813) रोहित जोशी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56814) अजय कौटिन्हो, आर्टी
- (आईसी-56815) विवेक जोशी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56816) संत कवि, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56819) पंकज अहुजा, ईएमई
- (आईसी-56821) रवि पाल सिंह राणा, इंजीनियर्स
- (आईसी-56822) मोहित राव, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56823) अरूण जग्गी, आर्टी
- (आईसी-56824) विशाल शर्मा, आर्टी
- (आईसी-56825) प्रशांत मल्होत्रा, ईएमई
- (आईसी-56826) तेज पाल सिंह राणा, ईएमई
- (आईसी-56828) डी मुखर्जी, सिग्नल्स
- (आईसी-56829) मनीष गर्ग, इंजीनियर्स
- (आईसी-56830) गौरव सिंह, एओसी
- (आईसी-56831) मरूति मिश्रा, आर्टी
- (आईसी-56832) हरीश राणा, एएससी
- (आईसी-56833) अशीष डिंगरा, इंजीनियर्स
- (आईसी-56834) चन्दोला अतुल रामेश, इंजीनियर्स
- (आईसी-56835) चन्द्र कांत शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56836) अजय उनियाल, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56838) सुमीत कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56840) डेलिन मैथ्यू, एएससी
- (आईसी-56841) मोहम्मद शोईब खान, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56842) नितिन कौल, सिग्नल्स
- (आईसी-56843) अमीत भटनागर, एसी
- (आईसी-56844) प्रभात कोहली, आर्टी
- (आईसी-56849) सुरेश जी, ईएमई
- (आईसी-56851) शरीक अहमद खान, आर्टी
- (आईसी-56853) इरफान जो कोल्लिंसन, मैक इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56855) सनदेश सदानन्द अमिन, एओसी
- (आईसी-56856) ओमीश सिंह राठौर, एएससी
- (आईसी-56857) समीर सिन्हा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56858) राहुल राजपूत, इंजीनियर्स
- (आईसी-56859) गुंजन, ईएमई
- (आईसी-56860) अंशुमन शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56861) कनवाल किशोर, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56862) कौशिक सरकार, इंजीनियर्स
- (आईसी-56863) राकेश पाठक, इंजीनियर्स
- (आईसी-56865) मनीष सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56867) सरसार मुकुंद माधवराव, ईएमई
- (आईसी-56868) अनिल कुमार सिंह पाटिल, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56869) रवि कुमार, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56870) मनवेन्द्र विनायक, एडी आर्टी
- (आईसी-56871) सजल थापा, एएससी
- (आईसी-56873) प्रदीप नेगी, ईएमई
- (आईसी-56874) सैकत सरकार, सिग्नल्स
- (आईसी-56875) जसजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56876) अक्षय कुमार सिंह राणा, एओसी
- (आईसी-56877) अभिजात कश्यप, एसी
- (आईसी-56878) हरमीत सिंह अहलुवालिया, आर्टी
- (आईसी-56879) अमीत निगम, इंजीनियर्स
- (आईसी-56880) संदीप चन्देल, एडी आर्टी
- (आईसी-56881) समवित आचार्य, ईएमई
- (आईसी-56883) विष्णु प्रताप सिंह, एसी
- (आईसी-56884) अविनाश वर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56886) विकास प्रभाकर, सिग्नल्स
- (आईसी-56887) ध्रुव ज्योति चन्द, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-56889) करपाल जीत सिंह, एएससी
- (आईसी-56890) धिरेन्द्र सिंह कपूर, ईएमई
- (आईसी-56891) संदीप शर्मा, आर्टी

(आईसी-56892) मनिन्दर सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56893) विवेक सिंह धनाई, ईएमई

(आईसी-56895) विक्रांत सिंह, एससी

(आईसी-56896) सुनील रावत, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56897) हिमांशु कालिया, आर्टी

(आईसी-56898) गेनेश बी रागवान, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-56899) संदीप बिष्ट, एओसी

(आईसी-56900) शिखर जयसवाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56901) दीपक आनंद, एसी

(आईसी-56902) अभिजीत बाबासाहिब अदगाँनकर, आर्टी

(आईसी-56903) नंदन सिंह दंगवाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56905) अमीत विज, आर्टी

(आईसी-56912) महेश प्रताप सिंह, आईसी

(आईसी-56918) त्रिधांकर चक्रवर्ती, आईसी

(आईसी-56919) अशीष दोभाल, इन्फैन्ट्री

--07 दिसम्बर 2009

(आईसी-58561) रघुनाथ सिंह मिन्हास, सिग्नल्स

(आईसी-58562) सरबप्रीत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-58563) आशीष कुमार रोहानकर, इंजीनियर्स

(आईसी-58564) एम बी सूरज, ईएमई

(आईसी-58566) संदीप बजाज, सिग्नल्स

(आईसी-58567) पंकज शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-58569) हरेन्द्र कुमार, ईएमई

(आईसी-58570) देवेन गोपाल लाल मखीजा, सिग्नल्स

(आईसी-58571) मनमोहन सिंह सिद्धु, इंजीनियर्स

(आईसी-58572) जनार्दन के, इंजीनियर्स

(आईसी-58573) विक्रमजीत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-58574) संजीव दत्ता, इंजीनियर्स

(आईसी-58575) गुरजीत सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-58577) सिद्धार्थ शंकर पटनायक, इंजीनियर्स

(आईसी-58580) अनुज कुमार सिंह, ईएमई

(आईसी-58581) शरद चन्द सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-58582) सुमोत अत्री, इंजीनियर्स

(आईसी-58584) रोहित शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-58586) अंशु कुमार गुप्ता, ईएमई

(आईसी-58587) एस राजेश अय्यर, इंजीनियर्स

(आईसी-58588) अनिन्दर जीत सिंह, ईएमई

(आईसी-58589) नीरज कुमार सिंह, सिग्नल्स

--12 दिसम्बर 2009

(आईसी-54843) सुरेश नारायणन, इंजीनियर्स

--03 नवम्बर 2008

कप्तान से मेजर

(आईसी-63367) रोहित साम्ब्याल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63368) अनुपम सिंह, एससी

(आईसी-63369) भास्कर शुक्ला, एसी

(आईसी-63370) पंकज भट्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63371) जगदीप प्रकाश राणा, मैक

(आईसी-63372) प्रतीक नरुला, ईएमई

(आईसी-63373) पंकज कुमार सिंह, एडी

(आईसी-63374) भामरे अभिजीत रंगराव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63375) मनोज कुमार भारद्वाज, आर्टी

(आईसी-63376) विक्रम सिंह घुमन, एसी

(आईसी-63377) कुलकर्णी अनिरुद्धा रामचंद्रन, आर्टी

(आईसी-63378) पंकज मोदगिल, आर्टी

(आईसी-63379) प्रदीप सिंह सौन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63380) बिभु फालगुनी दाश शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63381) सुमित लोगवल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63382) विशाल महाजन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63383) शिशिर श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63384) गौरव सोलंकी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63385) अंकुर कौशल, एसी

(आईसी-63386) राहुल गौतम, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63387) संकेत बवेजा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63388) विजय कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63389) प्रनय पद्माकर पवार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63390) भगवान सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63392) अखिल डोगरा, आर्टी

(आईसी-63393) पंकज कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63394) गुरशरण सिंह, एओसी
 (आईसी-63395) रोहित शिरिश पाठक, आर्टी
 (आईसी-63396) सुशील कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63397) उमंग कुमार, आर्टी
 (आईसी-63498) राज अभिनव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63399) मनोहर अनंत देशमुख, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63400) मनीष शुक्ला, आर्टी
 (आईसी-63401) कारांडे सुमित गनपत, आर्टी
 (आईसी-63402) कपिल देव सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63403) भीमाया पी एस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63404) मुकुल सति, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63405) प्रदीप सिंह मेहरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63406) श्रीकांत अम्बोस्कर रघुनाथ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63407) रंजीत नारायण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63408) उमेश चंद्रा सति, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63409) एन एन वेंकट श्रीराम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63410) अभिशेक गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63411) सुनिल कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63412) अमित कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63413) रुपिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63414) हिमांशु थापा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63415) सतीश कुमार मुदगल, एएससी
 (आईसी-63416) शैलेश सिंह पवार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63417) के बी नितिन नायर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63418) विक्रांत मित्तल, मैक
 (आईसी-63419) मेहुल सकलानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63420) प्रभदीप सिंह अट्वाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63421) तरुण सिंह जामवाल, मैक
 (आईसी-63422) सोरकतुला ज्योतिष कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63423) अमित कुमार दास, एडी
 (आईसी-63424) अजय मोहन, एसी
 (आईसी-63425) अमितेंद्रा कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-63426) अमित ज्योति लहकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63427) साकेत भारद्वाज, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63428) जगदीश प्रसाद, एईसी
 (आईसी-63429) प्रसाद ए बंसोद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63430) मुकेश कुमार राना, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63431) ब्रिजेश सिंह चौहान, आर्टी
 (आईसी-63432) विजय प्रताप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63433) नियाज अहमद, एओसी
 (आईसी-63434) विनित कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63435) मनिष कुमार, एसी
 (आईसी-63436) अजय बहादुर सक्सेना संगमा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63437) सजय हाज्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63438) सचिन कुमार थापा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63439) अमित महाजन, आर्टी
 (आईसी-63440) महेश खोत, आर्टी
 (आईसी-63441) मनोज सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63442) सिद्धार्थ आनंद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63443) अजय मरार जी के, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63444) सचिन कुमार तनाजी निकम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63445) प्रबिन कुमार झा, इंजीनियर्स
 (आईसी-63446) पार्थासारदी पाश्रुदु पा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63447) सुरज प्रकाश जगताप, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63448) अंशुमन पटियाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63449) संदीप सिंह लाम्बा, एएससी
 (आईसी-63451) तन बहादुर गुरूग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63452) अहिंद्रा डे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63454) मयंक चंदोला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63457) रजत सिंह पंवर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63458) अभिनव सक्सेना, आर्टी
 (आईसी-63461) कशप क्रिष्णन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63462) केदार दत्तत्रया गुप्ते, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63463) सविनसम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63464) धर्मेस सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63465) शिखर श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63466) अभिनव बक्शी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63468) अर्जुन एन सिंह, एसी

- (आईसी-63469) नक्षत्र भंडारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63470) कमलजीत सिंह आहलुवालिया, एओसी
 (आईसी-63471) प्रदीप कुमार थापा, इंजीनियर्स
 (आईसी-63472) रविकांत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63473) आशिष सी धोमस, आर्टी
 (आईसी-63474) नितेश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63476) कुमार आदर्श, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63477) अनंत गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63478) अरुण कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63479) राजेन्द्र सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63480) पत्तरकाईन मयूर मोहनराव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63481) संजय सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63482) राकूल पल्लट रमेश, एसी
 (आईसी-63483) राजिव कुमार बल, एओसी
 (आईसी-63484) नन्दन सिंह, एएससी
 (आईसी-63485) जिविन पॉल, आर्टी
 (आईसी-63486) मनीष गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63487) संतोष यशवन्त कुमार, आर्टी
 (आईसी-63488) जला अजीतकुमार अर्शी भाई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63489) अजित पाल सिंह रंधावा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63490) कैलाश सिंह नेगी, एओसी
 (आईसी-63491) अर्जुन सिंह, आर्टी
 (आईसी-63492) अरुण शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63493) लवेन्द्र सिंह चौधरी, एएससी
 (आईसी-63494) पियूष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63495) वरुण पाठक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63496) समीर चटर्जी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63497) दिपांशु मच्चेन, एसी
 (आईसी-63498) रघुवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63499) कामख्या सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63500) नितिन चौधरी, आर्टी
 (आईसी-63501) संजय मलिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63502) हिमांशु मित्रा, आर्टी
 (आईसी-63503) भारत शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63504) सुनील शर्मा, आर्टी
 (आईसी-63505) राजिन्दर सिंह करकोती, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63506) नितिन शंकर पाठक, एओसी
 (आईसी-63507) अजित कुमार महादेव बाघमोडे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63508) पवन सिंह, आर्टी
 (आईसी-63510) नीरज कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-63511) संदीप स्याल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63512) सुरजो दिप्तो सरें, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63513) राजाराव अलुका पल्ली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63514) राजलोक सिंह मेहता, मैक
 (आईसी-63515) मनीष राणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63516) उदय कृष्णा, एओसी
 (आईसी-63517) कुलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63518) मोहम्मद जीशान खान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63519) नकुल सिंह, एएससी
 (आईसी-63520) रविन्दर सिंह, एओसी
 (आईसी-63521) स्वपनिल सूर्यकांत घाग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63522) कौस्तुभ धगत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63523) अनुराग सिंह, आर्टी
 (आईसी-63524) कुलभूषण खनोरिया, एडी
 (आईसी-63525) अभिषेक शर्मा, आर्टी
 (आईसी-63526) समीर चौधरी, एसी
 (आईसी-63527) अनिल सिंह चौहान, मैक
 (आईसी-63528) अरविन्द कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63529) रिणोन बोरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63530) विथुन मोहन, एएससी
 (आईसी-63531) चेतन विजय धवाड, इंजीनियर्स
 (आईसी-63532) प्रदीप सिंह बूरा, आर्टी
 (आईसी-63534) किटस के दास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63535) रूपम शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63536) अश्विनी कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63537) विरेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-63538) राहुल प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63539) मिथुन मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63540) राजेन्द्र सिंह, एओसी	(आईसी-63575) आनन्द बोस, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63541) आदित्य सांसी, आर्टी	(आईसी-63576) रोहित बालो, एएससी
(आईसी-63542) मनीष चन्देल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63577) विकास प्रनथ कुमार प्रशांत, आर्टी
(आईसी-63543) परिवेश मैथानी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63578) विजय कुमार मुखेरिया, एसी
(आईसी-63544) हरविन्दर सिंह, मैक	(आईसी-63579) गुणवन्त सिंह घई, मैक
(आईसी-63545) पडी बट्ट, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63580) मुदस्सर इकबाल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63546) उदय शंकर दास, ईएमई	(आईसी-63581) पीयूष खरबंदा, आर्टी
(आईसी-63547) सौरभ सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63582) सचिन श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63548) विशाल शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63583) अभरिन्दर जीत सिंह, आर्टी
(आईसी-63549) धीरज प्रसाद शर्मा, एएससी	(आईसी-63584) अभिषेक चौहान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63550) गजेन्द्र सिंह रावत, ईएमई	(आईसी-63585) विमल शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63551) आंभित मिश्रा, एओसी	(आईसी-63586) रेविन जुनेजा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63552) पंकज दहिया, इन्ट	(आईसी-63587) वी रामानाथन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63553) संजीव कुमार त्रिपाठी, आर्टी	(आईसी-63588) तुषार रावत, सिग्नल्स
(आईसी-63554) अरविन्दर सिंह, आर्टी	(आईसी-63589) प्रभाकर बहुगुणा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63555) अभय सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63590) रवि श्रीवास्तव, आर्टी
(आईसी-63556) परवीन सांगवान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63591) सी संदीप, आर्टी
(आईसी-63557) अनुराग अस्थाना, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63592) ओमकार शिरिष बापत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63558) तुषार शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63593) अंकुर सिंह छिब, एएससी
(आईसी-63559) हर्ष वर्धन, आर्टी	(आईसी-63594) मधुसूदन रेड्डी, एओसी
(आईसी-63560) मनीष कुमार सिंह, एईसी	(आईसी-63595) सैनी सुमित परसराम, इन्ट
(आईसी-63561) राजुल सिंह, आर्टी	(आईसी-63596) अरविन्द प्रकाश, आर्टी
(आईसी-63562) जय कुमार वैकटेश मुदलियार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63597) संजीव कुमार, एसी
(आईसी-63564) रंजीत राठी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63598) तुषार सिंह खत्री, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63565) पीयूष शुक्ला, इंजीनियर्स	(आईसी-63599) सुशील सिंह, एसी
(आईसी-63566) ए बाबू, सिग्नल्स	(आईसी-63600) दीपक त्यागी, आर्टी
(आईसी-63567) विक्रम पाल सिंह, एएससी	(आईसी-63601) उदय भानू सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63568) ऋषिकेश प्रकाश सूर्यवंशी, आर्टी	(आईसी-63602) गौरव वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63569) जेनिथ अनुजम, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63603) दिगम्बर सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63570) सुनील रांगरा, मैक	(आईसी-63604) अमित कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63571) दीपक मेन्दीरता, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63605) आदित्य मोहन, एसी
(आईसी-63572) वी श्रीजीत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63606) अंकित शर्मा तुगनैत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63573) परमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63607) नवीन सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-63574) एस समरजीत शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-63608) वीरेन्द्र सिंह चौधरी, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-63609) वैभव भागवत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63610) रोहित दत्ता, एडी
 (आईसी-63612) सप्तार्थि गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63613) समीर श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63614) जतिन मित्तल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63615) ऋषि राज सिंह, एएससी
 (आईसी-63616) डी विनय रेड्डी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63617) गगन कुमार, आर्टी
 (आईसी-63618) लवदीप सिंह सैनी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63620) एम नागराज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63621) अनुराग गुलिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63622) रंजन पाण्डे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63623) राकांश यदुवंशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63624) दिनेशन जोतिष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63625) धीरज प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63626) विशाल पगारिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63627) राजेन्द्र सिंह भदुरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63628) अभिषेक विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63629) सौरभ एतिमान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63630) विवेक कुमार, आर्टी
 (आईसी-63631) सुबीर माथुर, मैक
 (आईसी-63633) रितेश राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63634) एस एम रियाज, एसी
 (आईसी-63635) मनप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63636) चेतन अरुण कदम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63637) विनोद एन पी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63639) जगमीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63640) राजेश प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63641) राजेश कटारिया, आर्टी
 (आईसी-63642) एस अभिलाष, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63643) रूपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63644) नायर श्रीजीत राजन, एडी
 (आईसी-63645) कौस्तव मोहन्ती, एसी
 (आईसी-63646) सुमित अरोड़ा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63647) सुमिन्दर सिंह, आर्टी
 (आईसी-63648) भारत अरुण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-63651) अमित व्यास, एओसी
 (आईसी-63652) अमित कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-63653) विवेक भागवत राव बन्दल, इंजीनियर्स
 (आईसी-63654) शक्ति किरण मुकंद, इंजीनियर्स
 (आईसी-63655) श्री प्रकाश चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-63656) कृष्ण कान्त शर्मा, ईएमई
 (आईसी-63657) सी ससि कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-63658) आशीष डोगरा, ईएमई
 (आईसी-63659) संदीप सिंह, ईएमई
 (आईसी-63660) महेश व्यास, ईएमई
 (आईसी-63661) अमित अतुल, सिग्नल्स
 (आईसी-63662) रतिश राज, इंजीनियर्स
 (आईसी-63663) अनुज कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-63664) शेशव श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 (आईसी-63665) अभिनव चौधरी, ईएमई
 (आईसी-63666) नीरज अशोक धोरान, सिग्नल्स
 (आईसी-63667) वैभव महेश आपटे, सिग्नल्स
 (आईसी-63668) अंकुर मित्तल, इंजीनियर्स
 (आईसी-63669) शुक्ला आशीष सिन्धुनाथ, ईएमई
 (आईसी-63670) अभूदया पन्त, इंजीनियर्स
 (आईसी-63671) राकेश कुमार, ईएमई
 (आईसी-63672) रमन परूती, सिग्नल्स
 (आईसी-63674) अभिनव शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-63675) रोहित बेदी, ईएमई
 (आईसी-63676) अभिषेक सिंह पौर्य, सिग्नल्स
 (आईसी-63677) रिषभ अरजारिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-63678) अमन भारद्वाज, इंजीनियर्स
 (आईसी-63679) शेकत गुप्ता, सिग्नल्स
 (आईसी-63680) अक्षय खन्ना, इंजीनियर्स
 (आईसी-63681) अभिषेक तिवारी, ईएमई
 (आईसी-63682) इन्द्रजीत दास, सिग्नल्स
 (आईसी-63683) नवीन कुमार मिश्रा, ईएमई

(आईसी-63684) विक्रम रावसो पाटिल, ईएमई
 (आईसी-63685) गुरतेज सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-63686) अश्विनी शर्मा, ईएमई
 (आईसी-63687) मोहित ढोंगरा, इंजीनियर्स
 (आईसी-63688) नितिन नागर, इंजीनियर्स
 (आईसी-63689) ए सत्यामूर्ति, सिग्नल्स
 (आईसी-63690) सत्यजीत घोष, ईएमई
 (आईसी-63691) परवीन सखाराम सरदार, इंजीनियर्स
 (आईसी-63692) दिव्य आदित्य, ईएमई
 (आईसी-63693) रवि कुमार त्रिपाठी, इंजीनियर्स
 (आईसी-63694) आर अजित कोर्ति, इंजीनियर्स
 (आईसी-63695) निखिल माधव खानजोडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-63696) अरिजीत भट्टाचार्य, ईएमई
 (आईसी-63697) वैभव गुप्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-63698) सुजीत बी भोसले, ईएमई
 (आईसी-63699) टी प्रशांत पवित्रान, ईएमई
 (आईसी-63700) मनोज कुमार मालाकर, इंजीनियर्स
 (आईसी-63701) नितिन कुरि कोसे, इंजीनियर्स
 (आईसी-63702) प्रदीप कुमार एस वी, इंजीनियर्स
 (आईसी-63703) दभी नीरव मदार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-63704) अखिल सिंघल, इंजीनियर्स
 (आईसी-63705) अश्वनी सिंह, ईएमई
 (आईसी-63706) अभिनव कौशल, सिग्नल्स
 (आईसी-63707) गौरव मलिक, ईएमई
 (आईसी-63709) अमर दीप पहल, ईएमई
 (आईसी-63710) आशीष नौटियाल, सिग्नल्स
 (आईसी-63711) मुनि चड्ढा, सिग्नल्स
 (आईसी-63712) सलिल जैन, इंजीनियर्स
 (आईसी-63713) अमित रमेश जोशी, सिग्नल्स
 (आईसी-63714) विशाल आहूजा, सिग्नल्स
 (आईसी-63715) मयंक साम्बयाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-63716) राहुल जूयाल, सिग्नल्स
 (आईसी-63717) भास्कर झा, इंजीनियर्स
 (आईसी-63718) विक्रांत कुमार जेटली, इन्फैन्ट्री

(आईसी-63719) अनुराग आहुजा, ईएमई
 (आईसी-63720) प्रसन्ना कुमार पधान, इंजीनियर्स
 (आईसी-63721) भास्कर सक्सेना, सिग्नल्स
 (आईसी-63722) सुधीर झा, इंजीनियर्स
 (आईसी-63723) जय शंकर एम, ईएमई
 (आईसी-63728) शिव प्रताप सिंह चौहान, आईसी
 (आईसी-63736) गौरव सूद, आईसी
 (आईसी-63745) दिनेश शर्मा, आईसी
 (आईसी-63759) सन्दिरेड्डी मोहन राव रामैया, आईसी

--13 दिसम्बर 2009

(आईसी-67825) रविन्दर कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-67826) कुलजीत सिंह तेंवर, सिग्नल्स
 (आईसी-67827) सुरेश कुमार टी पी, एडी
 (आईसी-67828) दीपांकर सहेल, सिग्नल्स
 (आईसी-67829) बलजीत सिंह चीमा, ईएमई
 (आईसी-67831) राकेश सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-67832) हनवन्त लाल, आर्टी
 (आईसी-67833) विजय कौल, आर्टी
 (आईसी-67834) ललित कुमार, आर्टी
 (आईसी-67835) राजीव चौधरी, ईएमई
 (आईसी-67838) सिमरन सिंह भाटी, एसी
 (आईसी-67839) दारा सिंह बोहरा, सिग्नल्स
 (आईसी-67842) प्रभान बरूआ, इंजीनियर्स
 (आईसी-67844) विवेक नेगी, ईएमई
 (आईसी-67845) पुनीत वत्स, ईएमई
 (आईसी-67847) योगराज इनाले, एडी
 (आईसी-67848) अभिषेक कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-67851) दीपक कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-67852) वरूण टण्डन, इंजीनियर्स
 (आईसी-67853) अर्पण घई, ईएमई
 (आईसी-67854) जितेन्द्र खुशीरे, सिग्नल्स
 (आईसी-67855) आकाश राज सम्मान, ईएमई
 (आईसी-67857) अश्विन्दर पाल सिंह, आर्टी
 (आईसी-67858) अभिषेक लाल, आर्टी

- (आईसी-67859) कंचर अमरदीप ग्रेवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-67860) ए कार्तिक राजा, आर्टी
 (आईसी-67861) अभिषेक नैगी, आर्टी
 (आईसी-67862) विशाल कपूर, सिग्नल्स
 (आईसी-67863) शान्तनु षटक, ईएमई
 (आईसी-67864) प्रयास पाण्डे, एसी
 (आईसी-67865) नवदीप मिश्र, सिग्नल्स
 (आईसी-67866) पटेल विनय मनीभाई, इंजीनियर्स
 (आईसी-67867) प्रकाश आनन्दन, ईएमई
 (आईसी-67868) शुभाजीत चक्रावर्ती, इंजीनियर्स
 (आईसी-67869) सपकल विनायक रामाचन्द्र, ईएमई
 (आईसी-67871) पटियाल नितिष, एसी
 (आईसी-67873) गजेन्द्र ए डबास, सिग्नल्स
 (आईसी-67874) ग्यानेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-67875) नवनीत सिंह लोहित, एडी
 (आईसी-67876) अरिन्दम गुप्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-67877) अभिषेक त्रिवेदी, एसी
 (आईसी-67880) संजीव कौशल, सिग्नल्स
 (आईसी-67882) दीपक कुमार महापात्रा, ईएमई

--14 दिसम्बर 2009

जसवंत सिंह
 संयुक्त निदेशक
 एम एस 8 सी

थल सेना विभाग

सं. 330, दिनांक 28 मई 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह लाम्बा (जेसी-840484पी), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-220798एक्स), 01 फरवरी 2010

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-206001एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार दिल बहादुर सुनारी थापा (जेसी-841307एफ), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार खेम सिंह (जेसी-259350एन), 01 अक्टूबर 2009
 नायब सूबेदार अब्दुल सतार (जेसी-192901वाई), 01 जनवरी 2010
 नायब सूबेदार हरिहरन पी (जेसी-438096एन), 01 फरवरी 2010
 नायब सूबेदार वेन्किडाचलम एस (जेसी-438614ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार सोम दत्त (जेसी-754703एफ), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-508563एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार तारकेश्वर सिंह (जेसी-662500एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार घनश्याम गुरूंग (जेसी-841405एफ), 01 फरवरी 2010

प्रदीप कुमार
 अधर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 331, दिनांक 31 मई 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर व पदोन्नति दिनांक

सूबेदार परब अनंत कान्ता (जेसी-826165एक्स), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-826166ए), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार संजय कुमार (जेसी-826167एच), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार सुरम सिंह (जेसी-826168एल), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार हेम सिंह (जेसी-826169के), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार समय सिंह (जेसी-826170एच), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार कमल किशोर (जेसी-826171एल), 01 जनवरी 2010

सूबेदार तिलक बहादुर कुँवर (जेसी-826174वाई), 01 फरवरी 2010

सूबेदार जेशमेर सिंह (जेसी-826175एफ), 01 फरवरी 2010

सूबेदार जॉर्ज कुट्टी वी जे (जेसी-826176के), 01 फरवरी 2010

सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-826177एम), 01 फरवरी 2010

बीएचएम उतेकर विजय राजाराम (सं. 2782858वाई) (जेसी-826219एन), 01 सितम्बर 2009

बीएचएम दिलिप कुमार आचार्य (सं. 6382442एम) (जेसी-826220एच), 01 सितम्बर 2009

बीएचएम जयरामन वी (सं. 6384531के) (जेसी-826221एल), 01 सितम्बर 2009

बीएचएम सुनिल कुमार के एन (सं. 1575717एफ) (जेसी-826222एन),
01 अक्टूबर 2009

बीएचएम एन सत्याबालन (सं. 1383900पी) (जेसी-826223डब्ल्यू),
03 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

बीएचएम बलवंत सिंह (सं. 3987557वाई) (जेसी-826224आई),
01 दिसम्बर 2009

बीएचएम सुनिल भगवान मोरै (सं. 2780638डब्ल्यू) (जेसी-826225एफ),
01 जनवरी 2010

बीएचएम पी जयराम (सं. 14398295के) (जेसी-826226के),
01 फरवरी 2010

बीएचएम ए मायाबेल (सं. 14396383एफ) (जेसी-826227एम),
01 फरवरी 2010

*धरिष्ठता दिनांक

प्रोत पाल सिंह
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 332, दिनांक 31 मई 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी नायब सूबेदार क्लर्क (एसडो)

हवलदार हुकुम चन्द (सं. 13961454ए अब जेसी-696975एन),
13 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13962338के अब जेसी-696996के),
05 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मनोज कुमार राय (सं. 13978108ए अब जेसी-
696976डब्ल्यू), 13 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 13980261पी अब जेसी-696977वाई),
21 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सन्तोष सिंह (सं. 13979839ए अब जेसी-696978एफ),
18 जून 2009

हवलदार सुशेन कुमार दास (सं. 13962289एम अब जेसी-
696979के), 18 जून 2009

हवलदार विक्रम सिंह चौहान (सं. 13961368पी अब जेसी-
696980आई), 01 जून 2009

हवलदार घाडगे हिन्दू राव पारस राम (सं. 13964500पी अब
जेसी-696981एफ), 01 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार पाटिल गनपति (सं. 13956674ए अब जेसी-697051एम),
12 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 14 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 13964556एफ अब जेसी-696982के),
01 जुलाई 2009

हवलदार वेणुगोपालन वी (सं. 13964598एन अब जेसी-
696983एम), 01 जुलाई 2009

हवलदार संजय साहा (सं. 13964632एच अब जेसी-696984पी),
01 जुलाई 2009

हवलदार वासेकर अनिल कृष्णा (सं. 13964633एल अब जेसी-
696985एक्स), 02 जुलाई 2009

हवलदार चन्द्र हास (सं. 13964613एक्स अब जेसी-696986ए),
17 जुलाई 2009

हवलदार रामेश्वर दयाल (सं. 13965009वाई अब जेसी-
696987एच), 01 जुलाई 2009

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 13965012वाई अब जेसी-696988एल),
17 जुलाई 2009

हवलदार ओम निवास (सं. 13965056डब्ल्यू अब जेसी-
696989एन), 07 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 13965123डब्ल्यू अब जेसी-
697225एफ), 04 अगस्त 2009

हवलदार प्रेम शंकर (सं. 13965115एक्स अब जेसी-697049पी),
10 अगस्त 2009

हवलदार मुकेश बाबू (सं. 13965116ए अब जेसी-696995एफ),
04 अगस्त 2009

हवलदार जेम्स एस (सं. 13965161एम अब जेसी-697050के),
10 अगस्त 2009

हवलदार साजी डी (सं. 13965515के अब जेसी-696990एच),
01 अगस्त 2009

हवलदार बिनोद कुमार झा (सं. 13965652एच अब जेसी-696991एल), 01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार देवी दयाल (सं. 13955373के अब जेसी-697226के), 31 अक्टूबर 2009

हवलदार सुरेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 13955530एल अब जेसी-697227एम), 28 अक्टूबर 2009

हवलदार महेन्द्र राम (सं. 13956482एच अब जेसी-697228पी), 05 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 25 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजू जी (सं. 13957696एल अब जेसी-697229एक्स), 04 नवम्बर 2009

हवलदार जगपाल प्रसाद शुक्ला (सं. 13957843एच अब जेसी-697231पी), 16 नवम्बर 2009

हवलदार राम भज्जो सिंह (सं. 13958052एक्स अब जेसी-697230एम), 20 नवम्बर 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13958444एल अब जेसी-697232एक्स), 13 नवम्बर 2009

हवलदार ब्रिज किशोर द्विवेदी (सं. 13959293के अब जेसी-697233ए), 06 नवम्बर 2009

हवलदार नवाब सिंह (सं. 13959624ए अब जेसी-697234एच), 11 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेन्द्र नाथ तिवारी (सं. 13961167डब्ल्यू अब जेसी-697349डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2009

हवलदार ग्यान सिंह (सं. 13962344एक्स अब जेसी-697235एल), 12 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13962902एन अब जेसी-697236एन), 16 नवम्बर 2009

हवलदार रघु डी (सं. 13963090एक्स अब जेसी-697237डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2009

हवलदार श्याम सुन्दर महतो (सं. 13963234पी अब जेसी-697238वाई), 12 नवम्बर 2009

हवलदार श्याम लाल (सं. 13963578एन अब जेसी-697239एफ), 18 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुशील कुमार (सं. 13965233एल अब जेसी-697294एक्स), 14 दिसम्बर 2009

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13965296एन अब जेसी-697287एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 13965651ए अब जेसी-697240डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2009

हवलदार गजानन्द कृष्णा (सं. 13965699एन अब जेसी-697288के), 24 नवम्बर 2009

हवलदार शिव कुमार सोनी (सं. 13965700एक्स अब जेसी-697241वाई), 19 नवम्बर 2009

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 13965968पी अब जेसी-697369के), 11 जनवरी 2010

हवलदार पाटिल प्रवीन कुमार यशवन्त (सं. 13966403डब्ल्यू अब जेसी-697314ए), 18 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बदगुजर उमाकान्त देव चन्द (सं. 13966405एफ अब जेसी-697289एम), 10 दिसम्बर 2009

हवलदार अनुरुद्ध सिंह राना (सं. 13966504के अब जेसी-697290एफ), 05 दिसम्बर 2009

हवलदार दोमिनंदर सिंह (सं. 13966567एम अब जेसी-697291के), 12 दिसम्बर 2009

हवलदार एल भास्कर रेड्डी (सं. 13966653एक्स अब जेसी-697292एम), 14 दिसम्बर 2009

हवलदार मनबेन्द्र खेरकाटरी (सं. 13967004वाई अब जेसी-697315एच), 30 दिसम्बर 2009

हवलदार एस काथिरेशन (सं. 13967015एल अब जेसी-697316एल), 18 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एम के अनीस कुमार (सं. 13967014एच अब जेसी-697313एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार महेश गुप्ता एम ए (सं. 13967018वाई अब जेसी-697317एन), 06 जनवरी 2010

हवलदार जोगेन चन्द्र दास (सं. 13967059एच अब जेसी-697370वाई), 11 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार परशोत्तम लाल (सं. 13960030एक्स अब जेसी-697244एम), 04 नवम्बर 2009

हवलदार नवीन कुमार (सं. 13981228के अब जेसी-697052पी),
11 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार तोगी कोटेश्वर राव (सं. 13966697पी अब जेसी-
696992एन), 26 जून 2009

हवलदार के मुथू रामालिंगम (सं. 13967009एक्स अब जेसी-
696997एम), 14 जून 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13966962ए अब जेसी-696993डब्ल्यू),
01 जुलाई 2009

हवलदार श्याम देव सिंह यादव (सं. 13966964एल अब जेसी-
696994वाई), 01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार उदय दास (सं. 13967252पी अब जेसी-697053एक्स),
16 सितम्बर 2009

हवलदार पराले महादेव महिपति (सं. 1576892एच अब जेसी-
697054ए), 11 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जगमोहन सिंह बिष्ट (सं. 13967493पी अब जेसी-
697242एफ), 10 अक्टूबर 2009

हवलदार निकोलस रवी पी (सं. 13967662एल अब जेसी-
697243के), 19 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार गिरिश चन्द्रा (सं. 13956078एन अब जेसी-697055एच),
01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बिरेन्द्र शाही (सं. 13956979ए अब जेसी-697058डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2009

हवलदार बच्चऊ (सं. 13964519एन अब जेसी-695056एल),
01 सितम्बर 2009

हवलदार वीरा किशोर स्वैन (सं. 13965185डब्ल्यू अब जेसी-
697057एन), 05 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 13965138वाई अब जेसी-697293पी),
26 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

कुलवन्त राणा
अधर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 333, दिनांक 31 मई 2010--राष्ट्रपति महोदया, खुश होकर
निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गाइड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-402926एल), 05 मई 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-402927एन), 04 जून 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार रामोतार (जेसी-403159के), 05 जून 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार रन सिंह (जेसी-403070एक्स), 01 जून 2009

सूबेदार ब्रिजेंद्र सिंह (जेसी-402740एफ), 04 अगस्त 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार जितेंद्र नाथ राय (जेसी-403181पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-403911पी), 26 सितम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-403642एन), 01 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
18 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-403806वाई), 11 मई 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मोहन स्वरूप (जेसी-403821एन), 05 नवम्बर 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश गौतम (जेसी-403879एल), 19 फरवरी 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तेजवीर सिंह चाहर (जेसी-403880ए), 26 अक्टूबर 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेश यादव (जेसी-403742वाई), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-403587एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार डी रामा स्वामी (जेसी-403705एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार पीरा राम (जेसी-403713के), 12 मई 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जेसी-403784एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार एलोइस क्षाक्षा (जेसी-403858पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुरेश चंद्र (जेसी-403859एक्स), 09 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरि बाबू दीक्षित (जेसी-403860एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-403864एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार श्री चंद्रा (जेसी-403873के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार खेम राज (जेसी-404049एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-403866एन), 01 जून 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रन सिंह (जेसी-403878एच), 09 जून 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिव राम (जेसी-403688डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार गिरीश कुमार द्विवेदी (जेसी-403867डब्ल्यू), 15 जून 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जेसी-403499एम), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-403675वाई), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार के वी (जेसी-403726एफ), 11 जुलाई 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मिसाला साम्बासिवा राव (जेसी-403780पी), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार राम प्रवेश प्रसाद (जेसी-403868वाई), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार राजेंद्र प्रसाद (जेसी-403900एच), 11 जुलाई 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-403708वाई), 02 जुलाई 2009

नायब सूबेदार शिव बिलाश सिंह यादव (जेसी-403892पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) रामजीत प्रसाद (जेसी-403818एन), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) लाल किशोर प्रसाद चौरसिया (जेसी-403914एच), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) मिहिर कुमार पॉल (जेसी-403936एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) कंवर साहब (जेसी-403946एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) राजेन्द्र प्रसाद भगत (जेसी-403947एन), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) अमृत नारायण कुमार (जेसी-403953एफ), 05 जुलाई 2009*

*(सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-421141डब्ल्यू), 10 फरवरी 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राज किशोर प्रसाद चौरसिया (जेसी-420548ए), 25 जनवरी 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अचान सिंह (जेसी-420584एल), 25 जनवरी 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धलवीर सिंह (जेसी-420324ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार गुरपाल सिंह (जेसी-420525वाई), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-420534ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार दीप कुमार (जेसी-420607एफ), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार नारायण राम (जेसी-421184एल), 08 फरवरी 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरी राजन जी (जेसी-420582ए), 02 फरवरी 2010

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 334, दिनांक 31 मई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार मेजर मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

सूबेदार एन धन राज (जेसी-754463पी), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-754458के), 05 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार मुकेश कुमार वाष्णीय (जेसी-754461के), 08 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार मेजर मास्टर टेक गन के रैंक में

सूबेदार रजिंद्र पाल (जेसी-754613ए), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार इंद्र नाथ झा (जेसी-754562एक्स), 12 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

सूबेदार मेजर मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सूबेदार कृष्ण पाल सिंह (जेसी-754556के), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-754660एक्स), 02 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार बालिक मधुकर सखाराम (जेसी-754611पी), 05 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार बीरपाल सिंह (जेसी-754526एम), 09 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

सूबेदार मेजर मास्टर टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

सूबेदार कन्हैया लाल (जेसी-757136पी), 12 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार कोचानुजन पिल्ले जी (जेसी-754593एक्स), 02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

सूबेदार सुरेश झा (जेसी-754594ए), 22 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

सूबेदार मेजर आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

सूबेदार हरचरन सिंह (जेसी-751416एम), 03 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

सूबेदार मेजर रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन के रैंक में

सूबेदार सेल्वन ए (जेसी-754128एल), 01 नवम्बर 2009

*(पिछली तारीख से धरियता दी जाती है)

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

दीवान नाथ गोस्वामी (सं. 14560115डब्ल्यू अब जेसी-764138एच), 09 जुलाई 2009/01 जून 2009*

सुरेश कुमार आर्या (सं. 14559335एन अब जेसी-764341वाई), 22 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009*

रमेश सिंह (सं. 14561382के अब जेसी-764342एफ), 23 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

जयवीर सिंह (सं. 14577804एन अब जेसी-764332एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
कृपा शंकर मिश्रा (सं. 14560021वाई अब जेसी-764343के), 30 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सुन्दर लाल (सं. 14621536एक्स अब जेसी-764344एम), 01 नवम्बर 2009

कृष्णा ए सी (सं. 14621714पी अब जेसी-764345पी), 02 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

तदुवाइ श्रीनिवासलु (सं. 14622419वाई अब जेसी-764346एक्स), 01 नवम्बर 2009

अजय कुमार चंडेल (सं. 14622789वाई अब जेसी-764347ए), 03 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

संजय कुमार (सं. 14622714एफ अब जेसी-764086एक्स), 16 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

राजीव रंजन (सं. 14623688एक्स अब जेसी-764348एच), 04 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

शशि भूषण सिंह (सं. 14624200एच अब जेसी-764349एल), 01 नवम्बर 2009

शेख अलाउद्दीन गुलाब (सं. 14624764एल अब जेसी-764350ए), 03 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

महेन्द्र सिंह (सं. 14624920के अब जेसी-764351एच), 06 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

धिरेन्द्र सिंह (सं. 14625400एल अब जेसी-764352एल), 01 नवम्बर 2009

माने अन्नासाहेब महिबुब (सं. 14625069एच अब जेसी-764353एन), 01 नवम्बर 2009

रमेश सिंह (सं. 14627017एल अब जेसी-764354डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक सी व्हीकल के रैंक में

रमेश कुमार (सं. 14583074के अब जेसी-764355वाई), 01 नवम्बर 2009

दनवारे सुधाकर गंगाधर (सं. 14612369एल अब जेसी-764356एफ), 09 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

सुरेन्द्र पाल (सं. 14612861डब्ल्यू अब जेसी-764357के), 05 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

संत बापू सखाराम (सं. 14623968एल अब जेसी-764358एम), 04 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

पवार सिधेश्वर रामदास (सं. 14623970एच अब जेसी-764359पी), 01 नवम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार स्माल आर्म्स के रैंक में

राम अवतार नादिया (सं. 14610306के अब जेसी-764360के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में

दया नन्द (सं. 14604864पी अब जेसी-764361एम), 27 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

महेश्वर गौड़ा (सं. 14604909के अब जेसी-764362पी), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

नसंत कुमार (सं. 14607800पी अब जेसी-764363एक्स), 02 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार वैल्वर के रैंक में

सुरेन्द्र बेहरा (सं. 14563529एन अब जेसी-764364ए), 29 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

के अशोकन (सं. 14561209ए अब जेसी-764365एच), 28 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

ओ राकेश सिंघा (सं. 14567848एक्स अब जेसी-764366एल), 22 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

राजेन्द्र गौर (सं. 14567850पी अब जेसी-764367एन), 23 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

परमार लालजी कंजीभाई (सं. 14567854एल अब जेसी-764368डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

सी दक्षिना मूर्थी (सं. 14568488वाई अब जेसी-764369वाई), 09 नवम्बर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

सुभाष सिंह (सं. 14570847ए अब जेसी-764370एन), 24 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

राम निवास (सं. 14573693के अब जेसी-764371डब्ल्यू), 26 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

मोहम्मद इफ्तार खान (सं. 14561044एम अब जेसी-764372वाई), 22 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

एन साबू वी सी (सं. 14582159एन अब जेसी-764373एफ), 29 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

कुमार पाल सिंह (सं. 14582141एक्स अब जेसी-764374के), 30 अक्टूबर 2009/04 अक्टूबर 2009 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सी एस बेनी (सं. 14586162एल अब जेसी-764226वाई), 01 सितम्बर 2009

राम दरास राम (सं. 14580780ए अब जेसी-764262के), 01 सितम्बर 2009

शमशेर सिंह नैन (सं. 14579368ए अब जेसी-764270एच), 01 अक्टूबर 2009

विजय कुमार यादव (सं. 14586394के अब जेसी-764272एन), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
के पांडियन (सं. 14616140के अब जेसी-764166पी), 17 अगस्त 2009/01 अक्टूबर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक आटो इलैक्ट्रोनिक्स के रैंक में

गौतम अधिकारी (सं. 14584464वाई अब जेसी-764167पी), 21 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

कमलेश कुमार ठाकुर (सं. 14605101एल अब जेसी-764168ए), 04 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

शिंदे सिवाजी मुरलीधरन (सं. 14614921वाई अब जेसी-764169एच), 19 अगस्त 2009/05 जुलाई 2009 *

ओमा राम विश्वा (सं. 14618022पी अब जेसी-764170एक्स),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

धिरेंद्र सिंह (सं. 14610626वाई अब जेसी-764171ए), 27 जुलाई
2009/05 जुलाई 2009 *

सी एस विजय सिम्होन (सं. 14619301एम अब जेसी-764172एच),
18 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार आर्ट्स टेक जी श्रीकल के रैंक में

चंद्रा कान्त अम्बोज (सं. 14560915पी अब जेसी-764173एच),
05 जुलाई 2009

शिखोनंदन प्रसाद (सं. 14561377वाई अब जेसी-764174एन),
20 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

मधु के (सं. 14560986डब्ल्यू अब जेसी-764175डब्ल्यू),
11 अगस्त 2009/05 जुलाई 2009 *

राम बहादुर सिंह (सं. 14561197डब्ल्यू अब जेसी-764176वाई),
14 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

भगवान सिंह (सं. 14561198वाई अब जेसी-764177एफ),
29 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

रिशिपाल सिंह (सं. 14561447एम अब जेसी-764179एम),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

दया राम (सं. 14571116वाई अब जेसी-764180एफ), 23 जुलाई
2009/05 जुलाई 2009 *

अजीत प्रसाद (सं. 14572941एच अब जेसी-764181के),
03 अगस्त 2009/05 जुलाई 2009 *

संजय योलमो (सं. 14572951एम अब जेसी-764182एम),
23 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

निरोज भुजेल (सं. 14572953एक्स अब जेसी-764183पी),
05 जुलाई 2009

त्रिलोकीनाथ सिंह (सं. 14573416वाई अब जेसी-764184एक्स),
31 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

राधे श्याम शर्मा (सं. 14573116एक्स अब जेसी-764185ए),
06 अगस्त 2009/05 जुलाई 2009 *

हेम चन्द्र (सं. 14573197एच अब जेसी-764186एच), 01 अगस्त
2009/05 जुलाई 2009 *

अच्छेलाल चौधरी (सं. 14573608डब्ल्यू अब जेसी-764187एल),
03 अगस्त 2009/05 जुलाई 2009 *

विष्णु राम भोरालि (सं. 14574650एफ अब जेसी-764188एन),
05 जुलाई 2009

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

नायब सूबेदार श्रीनिवास देवाकारा कौंडा (जेसी-758882के),
01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार गम्भीर सिंह चौधरी (जेसी-758894वाई), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार चवन संजीवन गनपत (जेसी-758897एम), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-758895एफ), 01 दिसम्बर
2009

सूबेदार मास्टर टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्णा कान्त राय (जेसी-759330एच), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार सुधा सिंह (जेसी-759328एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार इंद्रदेव प्रसाद (जेसी-759329एन), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार वेल्लुवा (जेसी-759332एन), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार चक्रधर राय (जेसी-759333डब्ल्यू), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार रामपुकार प्रसाद (जेसी-759331एल), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार ओमकार नाथ (जेसी-759327एच), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र साहु (जेसी-759334ए), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार रमेश कुमार सिंह (जेसी-759337एम), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार प्रेमवीर सिंह (जेसी-758931एफ), 02 दिसम्बर
2009/01 दिसम्बर 2009 *

सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

नायब सूबेदार बृज किशोर (जेसी-761629वाई), 11 नवम्बर
2009/23 जून 2009 *

नायब सूबेदार जोन सुंदि पूर्ति (जेसी-761629वाई), 23 जून 2009

नायब सूबेदार अयोध्या प्रसाद (जेसी-762073एफ), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार भीम शंकर चौबे (जेसी-761693एल), 18 दिसम्बर
2009/01 जून 2009 *

नायब सूबेदार अमित कुमार राय (जेसी-761569के), 22 नवम्बर
2009/01 जून 2009 *

सूबेदार टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

नायब सूबेदार टी पी एल प्रसाद राव (जेसी-760212एफ), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार भाकर राम खीचर (जेसी-760220ए), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जया राजन के एम (जेसी-760221एच), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार श्रवण कुमार बिश्नोई (जेसी-760222एल), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-758809एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार पाटिल राजेन्द्र किशन (जेसी-758812एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार नरेश पाल सिंह मलिक (जेसी-758811एच), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार मदन प्रसाद (जेसी-758875एन), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार राजीव वर्मा (जेसी-758864एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार देव आनन्द (जेसी-758810ए), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-758807ए), 03 नवम्बर 2009/ 01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार मयप्पन आर (जेसी-758862डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सुनील बरन गतैत (जेसी-758813एन), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार श्रीनिवासगन जी (जेसी-758863वाई), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-758814डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अजय कुमार साहू (जेसी-759002पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-758725एक्स), 07 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार कानवर सिंह (जेसी-759372पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार आत्माकुरी रमना मूर्ति (जेसी-759096एक्स), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-759261एक्स), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार के नटराजन (जेसी-759144एम), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-758981एम), 19 नवम्बर 2009/ 01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार शिम्बु दयाल यादव (जेसी-758317एम), 19 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार जितेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-759100पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार के कुप्पु सामी (जेसी-759266डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार त्रिभुवन ठाकुर (जेसी-759264एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार दया निधि मोहंता (जेसी-759145पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सोमेश्वर मिश्रा (जेसी-758409वाई), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार देवी दत्त (जेसी-759263एच), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-759371एम), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट्रॉनिक के रैंक में

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह भंडारी (जेसी-758997एक्स), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मेटलर्जी के रैंक में

नायब सूबेदार कमल देव प्रसाद (जेसी-760414एच), 20 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009*

सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

नायब सूबेदार बिरेंद्र कुमार पान्डेय (जेसी-754570डब्ल्यू), 19 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

सूबेदार वैलडर के रैंक में

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह (जेसी-760597के), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार बिरेंद्र कुमार (जेसी-760596एफ), 10 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जेसी-760535के), 03 नवम्बर 2009/ 01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार हरी धानी सिंघा (जेसी-760511ए), 10 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-760594डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

नायब सूबेदार सत्यवीर (जेसी-759401वाई), 23 नवम्बर 2009/ 01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-759402एफ), 19 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश तिवारी (जेसी-758654एफ), 30 नवम्बर 2009/01 जुलाई 2009*

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-761674ए), 23 नवम्बर 2009/ 23 जून 2009*

नायब सूबेदार सत्य नारायण द्विवेदी (जेसी-762117एन), 01 अक्टूबर 2009/01 जुलाई 2009*

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-761005एफ), 23 जून 2009

सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम शंकर विश्वकर्मा (जेसी-759000के), 08 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अबानी मंडल (जेसी-759998ए), 04 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार साजी वरधिस (जेसी-758999एच), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

नायब सूबेदार कनगराज सी (जेसी-758995एम), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के रैंक में

नायब सूबेदार शैतान राम विशनोई (जेसी-758851के), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अचयुता प्रधान (जेसी-758888एल), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार अभय सिंह (जेसी-758860एल), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार उमेश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-758817के), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जया कुमार के (जेसी-758993एफ), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मास्टर टेक जीसीई के रैंक में

नायब सूबेदार मनिकांत उपाध्याय (जेसी-769001एम), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार हंड्रे बरूआ (जेसी-761852एक्स), 19 नवम्बर 2009/ 01 जुलाई 2009*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

मनोज कुमार शर्मा (सं. 14585467वाई अब जेसी-764117एम), 01 अगस्त 2009

नेमन्ना बाई तगारी (सं. 14585829पी अब जेसी-764118पी), 01 अगस्त 2009

पुरुषोत्तम सिंह (सं. 14585834ए अब जेसी-764119एक्स), 01 अगस्त 2009

नाग सिंह पन्धर (सं. 14585866एच अब जेसी-764121पी), 01 अगस्त 2009

चीसा राम चौधरी (सं. 14585875के अब जेसी-764122एक्स), 01 अगस्त 2009

भगवान सिंह शेखावत (सं. 14585882ए अब जेसी-764123ए), 01 अगस्त 2009

गिरधारी लाल शर्मा (सं. 14584571ए अब जेसी-764125एल), 01 अगस्त 2009

चरन सिंह (सं. 14583895वाई अब जेसी-764126एन), 01 अगस्त 2009

मोहन सिंघा (सं. 14585847एक्स अब जेसी-764127डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

क्रिशन कुमार (सं. 14604870एच अब जेसी-764129एफ), 01 अगस्त 2009

रमेश सिंह (सं. 14604872एन अब जेसी-764130डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

रविन्द्र पाल सिंह (सं. 14604896एक्स अब जेसी-764131वाई), 01 अगस्त 2009

रविन्द्र कुमार सिंह (सं. 14604914पी अब जेसी-764132एफ), 01 अगस्त 2009

लाल मोहन कोनर (सं. 14604918एल अब जेसी-764133के), 01 अगस्त 2009

खेम चन्द (सं. 14604924वाई अब जेसी-764134एम), 01 अगस्त 2009

स्वप्न कुमार शर्मा (सं. 14605079एल अब जेसी-764135पी), 01 अगस्त 2009

अनांद मोहन मंडल (सं. 14600375एम अब जेसी-764163एफ), 17 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009*

अनिल कुमार (सं. 14601791एच अब जेसी-764164के), 25 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009*

राजेन्द्र सिंह (सं. 14604854एल अब जेसी-764165एम), 27 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में

मोहिन्दर सिंह गिल (सं. 14604852ए अब जेसी-764103एम), 01 अगस्त 2009

रामदासन के (सं. 14612876वाई अब जेसी-764104पी), 01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑप्टो टेक बी व्हीकल के रैंक में
मारतंड सिंह (सं. 14558804वाई अब जेसी-764136एक्स),
06 जुलाई 2009/10 मई 2009 *

घन श्याम सिंह (सं. 14558831एच अब जेसी-764137ए),
04 जुलाई 2009/10 मई 2009 *

सी अर्जुनन (सं. 14560981एक्स अब जेसी-763848एन),
24 जुलाई 2009/05 मई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑप्टो टेक सी व्हीकल के रैंक में
सुरेन्द्र नाथ पांडेय (सं. 14562900एल अब जेसी-764139एल),
06 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

दीपक दास (सं. 14562818डब्ल्यू अब जेसी-764140ए), 10 जुलाई
2009/05 जुलाई 2009 *

महेश कुमार (सं. 14563010एक्स अब जेसी-764141एच),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

संतोष कुमार सर (सं. 14572956एल अब जेसी-764154ए),
15 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

रमेश चन्द्र (सं. 14574701के अब जेसी-764155एच), 16 जुलाई
2009/05 जुलाई 2009 *

नमुना राय (सं. 14563604एम अब जेसी-764156एल), 14 जुलाई
2009/05 जुलाई 2009 *

जय प्रकाश राय (सं. 14582711एच अब जेसी-764157एन),
14 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

पनी भुसंकरा राव (सं. 14582955डब्ल्यू अब जेसी-764158डब्ल्यू),
01 अगस्त 2009

हरे राम सिंह (सं. 14581917एन अब जेसी-764158वाई),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
प्रताप नारायण (सं. 14603156डब्ल्यू अब जेसी-764143एन),
15 जुलाई 2009/07 मई 2009 *

राधा कृष्णन पी के (सं. 14610897डब्ल्यू अब जेसी-764144डब्ल्यू),
16 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

महेशा ए पी (सं. 14622042ए अब जेसी-764145वाई), 21 जुलाई
2009/01 जून 2009 *

संजय कुमार सिंह (सं. 14621362डब्ल्यू अब जेसी-764146एफ),
01 अगस्त 2009

सल्गार बालासाहिब जल्लिंदा (सं. 14622313एम अब
जेसी-764148एम), 01 अगस्त 2009

मल्टी प्रसाद डे (सं. 14622493ए अब जेसी-764149पी),
01 अगस्त 2009

कंचला श्रीनिवासा राव (सं. 14622424के अब जेसी-764150के),
01 अगस्त 2009

पवन कुमार शर्मा (सं. 14622785एच अब जेसी-764151एम),
01 अगस्त 2009

पलानिवेल आर (सं. 14624821एफ अब जेसी-764152पी), 14 जुलाई
2009/01 जून 2009 *

सुभाश चंद्र बिस्वास (सं. 14621948वाई अब जेसी-764153एक्स),
15 जुलाई 2009/01 मई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में
बी सत्या नारायण (सं. 14618804एल अब जेसी-764105एक्स),
03 जुलाई 2009/01 जून 2009 *

अशोक कुमार (सं. 14610204एन अब जेसी-764106ए), 04 जुलाई
2009/07 जून 2009 *

सुंदर कुमार (सं. 14619612ए अब जेसी-764107एच), 14 जुलाई
2009/07 जून 2009 *

पचयप्पन टी ई (सं. 14620459एफ अब जेसी-764108एल),
03 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

मधु सुदन (सं. 14620519एल अब जेसी-764109एन), 03 जुलाई
2009/07 जून 2009 *

बैजू कुमार एस (सं. 14620561के अब जेसी-764110एच),
25 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

पी अनंथ प्रधान (सं. 14622026एच अब जेसी-764112एन),
03 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

राजा राव अंगा (सं. 14622618एम अब जेसी-764113डब्ल्यू),
23 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

सुजित कुमार पॉल (सं. 14622666एम अब जेसी-764114वाई),
28 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

राम मेहर (सं. 14622217पी अब जेसी-764115एफ), 12 जुलाई
2009/07 जून 2009 *

अनिल कुमार चौधरी (सं. 14622750एम अब जेसी-764116के),
04 जुलाई 2009/07 जून 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

अशोक कुमार (सं. 14570890एफ अब जेसी-763088डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2009

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

ओम प्रकाश पांडेय (सं. 14562433वाई अब जेसी-764160एन),
12 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

पेमा राम (सं. 14568234एफ अब जेसी-764162डब्ल्यू),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजनमेंट के रैंक में
साजि कुमार पी के (सं. 14641287एल अब जेसी-764161वाई),
12 जुलाई 2009/05 जुलाई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
सुभाष चन्द्र धारा (सं. 14621841के अब जेसी-764142एल),
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एबीएफ (एबीएन) के रैंक में
अजीत कुमार बी (सं. 14617111एफ अब जेसी-764102के),
01 जुलाई 2009

राजेन्द्र सिंह (सं. 14617600एम अब जेसी-763706डब्ल्यू),
18 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 *

*(पिछली तारीख से थरोयता दी जाती है।)

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के रैंक में
अज़ाद अहमद खान (सं. 14614506एक्स अब जेसी-764207एन),
05 जुलाई 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक सी व्हीकल के रैंक में
अरुन कुमार श्रीवास्तव (सं. 14612880एफ अब
जेसी-764208डब्ल्यू), 10 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
कन्नन एस (सं. 14623260एल अब जेसी-764209वाई),
01 सितम्बर 2009

गडाडे भरत अबासाहेब (सं. 14623283एम अब जेसी-764210एन),
01 सितम्बर 2009

ब्रज राज (सं. 14622920एल अब जेसी-764211डब्ल्यू), 03 सितम्बर
2009/01 सितम्बर 2009 *

लक्ष्मीधर बेहरा (सं. 14623528एक्स अब जेसी-764212वाई),
01 सितम्बर 2009

सुशील कुमार पान्डेय (सं. 14623422एल अब जेसी-764213एफ),
01 सितम्बर 2009

नीरज कुमार उपाध्याय (सं. 14624065ए अब जेसी-764214के),
01 सितम्बर 2009

मदन सिंह चौहान (सं. 14624721डब्ल्यू अब जेसी-764215एम),
01 सितम्बर 2009

विनय कुमार पान्डेय (सं. 14626179के अब जेसी-764216पी),
01 सितम्बर 2009

विनायक (सं. 14625702एक्स अब जेसी-764217एक्स), 01 सितम्बर
2009

भाभोटोष कुमार (सं. 14625903डब्ल्यू अब जेसी-764218ए),
01 सितम्बर 2009

श्रवण कुमार पान्डेय (सं. 14601207ए अब जेसी-764219एच),
01 सितम्बर 2009

नेमद विलारा मोतीराम (सं. 14601726एच अब जेसी-764220एक्स),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट धर्किंग) के रैंक में
जगदले सतीश एस (सं. 14615765एम अब जेसी-764221ए),
01 सितम्बर 2009

विशला पूरनसिंह एम सिंह (सं. 14604318एच अब जेसी-764222एच),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
गजराज सिंह (सं. 14561446के अब जेसी-764223एल), 20 अगस्त
2009/10 मई 2009 *

शैलेन्द्र बर्मन (सं. 14561603एल अब जेसी-764189डब्ल्यू),
19 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
प्रयाग प्रसाद (सं. 14577371एफ अब जेसी-764224एन), 20 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009 *

शम्भू नाथ मोहंता (सं. 14586065एन अब जेसी-764225डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2009

अपूर्वा बरन दास (सं. 14586557एम अब जेसी-764227एफ),
01 सितम्बर 2009

राजेश कुमार (सं. 14584875एक्स अब जेसी-764228के),
01 सितम्बर 2009

खेता राम डूंडी (सं. 14585870एल अब जेसी-764229एम),
01 सितम्बर 2009

कुमार पाल सिंह (सं. 14578487के अब जेसी-764230एफ),
01 सितम्बर 2009

हरी पी टी (सं. 14579646एच अब जेसी-764231के), 19 सितम्बर
2009/01 सितम्बर 2009 *

राजेन्द्र यादव (सं. 14570549के अब जेसी-764232एम),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक इलेक्ट्रॉनिक बी व्हीकल के रैंक में
रामराज सिंह (सं. 14557975वाई अब जेसी-764233पी), 15 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009 *

विधान तालुकदार (सं. 14558509डब्ल्यू अब जेसी-764234एक्स),
13 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

संतोष कुमार सिंह (सं. 14558805एफ अब जेसी-764235ए),
14 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

कमलेश कुमार मौर्या (सं. 14559127वाई अब जेसी-764236एच),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में
शेख ईमाम (सं. 14561404एक्स अब जेसी-764237एल),
11 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

मंजू राम अधिकारी (सं. 14561506एन अब जेसी-764238एन),
01 सितम्बर 2009

शीश राम (सं. 14558533एम अब जेसी-764239डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

शीला नाथ सिंह (सं. 14564641एम अब जेसी-764243वाई),
01 सितम्बर 2009

नागेन्द्र सिंह (सं. 14564715डब्ल्यू अब जेसी-764244एफ),
01 सितम्बर 2009

नरेन्द्र पाल (सं. 14564715डब्ल्यू अब जेसी-764245के),
01 सितम्बर 2009

सुशील कुमार (सं. 14563480एच अब जेसी-764246एम),
01 अक्टूबर 2009

वीर भान (सं. 14559877एक्स अब जेसी-764247पी), 05 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

सूबेदार मेजर टेक आरमोरर के रैंक में

सूबेदार सुरेंद्र कुमार राय (जेसी-754891एन), 20 जनवरी 2010/
01 दिसम्बर 2009 *

सूबेदार मेजर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

सूबेदार सुलाखन सिंह (जेसी-754280वाई), 04 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-756423एम), 15 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-751772एम), 02 जनवरी 2010/01 जनवरी
2010 *

सूबेदार राजीव कुमार सिंह (जेसी-751685वाई), 01 जनवरी 2010

सूबेदार मेजर मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

सूबेदार रमाकांत (जेसी-751896एफ), 01 जनवरी 2010

सूबेदार सुभाष चंद्र सैनी (जेसी-751897के), 01 जनवरी 2010

सूबेदार पून लाल (जेसी-752584एक्स), 01 जनवरी 2010

सूबेदार विजया कुमार पी एस (जेसी-758319एक्स), 01 जनवरी
2010

सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में

सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-759443एल), 04 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

सूबेदार मेजर (एसकेटी) के रैंक में

सूबेदार लक्ष्मण तिवरी (जेसी-751295डब्ल्यू), 04 जनवरी 2010

सूबेदार कनवर पाल सिंह (जेसी-750812डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

सूबेदार मेजर ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

सूबेदार सी रामा चंदू (जेसी-751485एच), 18 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-761272एच), 16 जून 2009/
01 अप्रैल 2009 *

नायब सूबेदार जीवन सिंह रौतेला (जेसी-756815वाई), 04 दिसम्बर
2009/01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-758902एम), 06 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार अर्ग गनपती भीम राव (जेसी-758903पी), 07 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार अबदेश सिंह (जेसी-758907एल), 01 फरवरी 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-759260पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जय प्रकाश वर्मा (जेसी-759398के), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार सगादेवन (जेसी-759399एम), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार मोहम्मद याहा खान (जेसी-759400डब्ल्यू), 11 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार सी मुनियांडी (जेसी-759142एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार राजेंद्र प्रसाद मिश्रा (जेसी-759516एम), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार जगदीश चंद्र चंदोला (जेसी-759484पी), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार राकेश मोहन सिंह (जेसी-758983एक्स), 01 सितम्बर
2009

नायब सूबेदार राम आधरे (जेसी-760142एन), 15 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-760143डब्ल्यू), 15 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार राम क्रिशनन एस (जेसी-758838ए), 01 अगस्त
2009

नायब सूबेदार भूतेश्वर सिंह (जेसी-759275एक्स), 24 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

नायब सूबेदार मदन लाल यादव (जेसी-759369पी), 24 नवम्बर
2009/01 नवम्बर 2009 *

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-760572एक्स), 27 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-760573ए), 27 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-760574एच), 27 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार सोनधोर सिंह (जेसी-760903एन), 01 फरवरी 2010
सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार उदय भान (जेसी-760223एन), 15 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार राजन सी (जेसी-759336के), 15 दिसम्बर 2009/
01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार शिख भगत (जेसी-760224डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010
सूबेदार मास्टर टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

नायब सूबेदार हरी चंद (जेसी-758930वाई), 03 दिसम्बर 2009/
01 दिसम्बर 2009 *

नायब सूबेदार सनल आर (जेसी-759335एफ), 01 दिसम्बर 2009
सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

नायब सूबेदार डी के पलानिवेल (जेसी-758893डब्ल्यू), 01 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार आर कुमार (जेसी-759015एम), 11 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार सुखादे अनंत ततोबा (जेसी-758898पी), 13 जनवरी
2010/01 जनवरी 2010 *

नायब सूबेदार समौन शेख (जेसी-758901के), 04 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010 *

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार शफ़क़त जावेद (जेसी-761562ए), 17 दिसम्बर
2009/19 जुलाई 2009 *

सूबेदार म्यूजिशियन के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्द्र वर्मा (जेसी-760836एन), 16 जून 2009/
01 मार्च 2009 *

सूबेदार आरटी (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार दिपांकर सिंह (जेसी-753871एन), 14 नवम्बर
2009/04 नवम्बर 2009 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन डब्ल्यू एस सांताराम (सं.
6932349एम अब जेसी-728672पी), 02 सितम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन परम लाल (सं. 6932541डब्ल्यू
अब जेसी-728673एक्स), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन बी के मोहलिक (सं. 6932818के
अब जेसी-728674ए), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) पवन कुमार (सं. 6920848पी अब
जेसी-728675एच), 01 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) कअब राव (सं. 6922466के अब जेसी-
728676एल), 10 नवम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) अशोक कुमार (सं. 6924161एच अब
जेसी-728677एन), 01 नवम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (एसडी) एन के मिश्रा (सं. 6924324एल अब
जेसी-728678डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (एसडी) एम पंडिआ राज (सं. 6924349एक्स अब
जेसी-728679वाई), 04 नवम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) एम पी नायक (सं. 6924415पी अब
जेसी-728680एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) टी एन चोडबेय (सं. 6924417ए अब
जेसी-728681डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) डी दत्ता (सं. 6924420ए अब जेसी-
728682वाई), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एन साहु (सं. 6924421एच अब
जेसी-728683एफ), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एस अज़ाद (सं. 6924445एम अब
जेसी-728684के), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) ए के दास (सं. 6924447एक्स अब
जेसी-728685एम), 07 दिसम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (एसडी) रमेश बाबु एल एन (सं. 6924519डब्ल्यू
अब जेसी-728686पी), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) बी एस ठाकुर (सं. 6924543एम अब जेसी-728687एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) ए के पटेल (सं. 6924585वाई अब जेसी-728688ए), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) जी मारी मुथु (सं. 6924613ए अब जेसी-728689एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एन थोमस (सं. 6924614एच अब जेसी-728690एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एस सी मंडल (सं. 6924639पी अब जेसी-728691ए), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) दिलीप कोले (सं. 6924642पी अब जेसी-728692एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर दास (सं. 6924655एम अब जेसी-728693एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) ए के चतुर्वेदी (सं. 6924686एम अब जेसी-728694एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) माहा सुख (सं. 6924705एम अब जेसी-728695डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) डी प्रसाद (सं. 6924760एच अब जेसी-728696वाई), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर के दास (सं. 6924767एम अब जेसी-728697एफ), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) बलजीत (सं. 6924771पी अब जेसी-728698के), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) रूप लाल (सं. 6924827डब्ल्यू अब जेसी-728699एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) सिग्नल गयार सिंह (सं. 6923854एन अब जेसी-728700डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन राम ब्रिक्श (सं. 6923909एम अब जेसी-728701वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन आर एस वर्मा (सं. 6923920एल अब जेसी-728702एफ), 11 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन सुबाचन (सं. 6923934एल अब जेसी-728703के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन सुराजदिन (सं. 6923941एफ अब जेसी-728704एम), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी दिनेश सिंह (सं. 6923949एन अब जेसी-728705एम), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन एस कुमार (सं. 6923954वाई अब जेसी-728706एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन गंगा सागर (सं. 6923962एक्स अब जेसी-728707ए), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन शिव शंकर (सं. 6923976एक्स अब जेसी-728708एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन अवधेश सिंह (सं. 6923966एन अब जेसी-728709एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) सिग्नल नरेंद्र सिंह (सं. 6924087एम अब जेसी-728710ए), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी करम चंद (सं. 6924090एम अब जेसी-728711एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) सिग्नल प्रकाश (सं. 6924095एल अब जेसी-728712एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) सिग्नल लक्ष्मी सिंह (सं. 6924096एन अब जेसी-728713एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी के एस रैतिला (सं. 6924190एक्स अब जेसी-728714डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) अम्युनिशन एम पी चमोली (सं. 6924193एल अब जेसी-728715वाई), 11 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी जी के राव (सं. 6924204एम अब जेसी-728716एफ), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी के एस बाबु (सं. 6924206एक्स अब जेसी-728717के), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी के शंमुखम (सं. 6924207ए अब जेसी-728718एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी टी एल नारायाना (सं. 6924208एच अब जेसी-728719पी), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसकेटी) जीएस एंड सी वाई वी एस नारायाना (सं. 6924211एच अब जेसी-728720के), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसएचटी) सतबीर सिंह (सं. 6921003एच अब जेसी-728721एम), 05 जून 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी राम फल (सं. 6920984एल अब जेसी-728722पी), 25 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच (जीडी) जे बेरा (सं. 6922746एक्स अब जेसी-728723के), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) राजेंद्र कुमार (सं. 6922815एच अब जेसी-728724ए), 01 नवम्बर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) कल्याण सिंह (सं. 6922822वाई अब जेसी-728725एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) चंदेर हास (सं. 6922854एफ अब जेसी-728726एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) घन श्याम (सं. 6922855के अब जेसी-728727एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) एन सी मंडल (सं. 6922876ए अब जेसी-728728डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार एसएच (जीडी) उ एस बोरगावे (सं. 6922889एक्स अब जेसी-728729वाई), 02 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच (जीडी) सज्जन सिंह (सं. 6922954एम अब जेसी-728730एन), 01 जनवरी 2010

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन वाई पी यादव (सं. 6932529पी अब जेसी-728731डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन बी मोहंती (सं. 6932838एक्स अब जेसी-728732वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन डी एस तोमर (सं. 6932116एल अब जेसी-728733एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन एन करमाकर (सं. 6932386ए अब जेसी-728734के), 01 जनवरी 2010

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन आर पी शाव (सं. 6932817एफ अब जेसी-728735एम), 01 फरवरी 2010

हवलदार (क्लर्क आईएम) एस एल राम (सं. 6924212एल अब जेसी-728736पी), 29 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) सोबरन सिंह (सं. 6921740के अब जेसी-728737एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) समेय सिंह (सं. 6924813डब्ल्यू अब जेसी-728738ए), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) राजवीर (सं. 6924821पी अब जेसी-728739एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) धरम सिंह (सं. 6924822एक्स अब जेसी-728740एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) बाबू राम (सं. 6924826एन अब जेसी-728741ए), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) एम भूपालन (सं. 6924946एम अब जेसी-728742एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) एम वैकिताचलापथी (सं. 6924951एक्स अब जेसी-728743एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) नीलामेगम पी (सं. 6924954एल अब जेसी-728744एन), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) रामा मूर्थी एस (सं. 6924960वाई अब जेसी-728745एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) शो सरंगापाणी (सं. 6924973डब्ल्यू अब जेसी-728746वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) जी मुरथी (सं. 6924978पी अब जेसी-728747एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) जी टी बापु (सं. 6925054एन अब जेसी-728748के), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) सी बी कलाम्पा (सं. 6925063पी अब जेसी-728749एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) आर नारा सिम्मोन (सं. 6925079ए अब जेसी-728750एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) अरविंद कुमार (सं. 6925122डब्ल्यू अब जेसी-728751के), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (एसडी) एम जे नायडू (सं. 6925208पी अब जेसी-728752एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) ए के नाथ (सं. 6925299के अब जेसी-728753पी), 01 जनवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर चिवटेकर (सं. 6925308ए अब जेसी-728754एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) एच पानिकेर जी (सं. 6925316वाई अब जेसी-728755ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर बी माहतो (सं. 6925319एम अब जेसी-728756एच), 06 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) दौंदु डी सोउजा (सं. 6925325ए अब जेसी-728757एन), 09 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) एच सुथार (सं. 6925336एम अब जेसी-728758एन), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) अम्पुनेशन पी शर्मा (सं. 6923963डब्ल्यू अब जेसी-728759डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी जी के मिश्रा (सं. 6924210ए अब जेसी-728760एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी जी फारूक हसन (सं. 6924220के अब जेसी-728761एन), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन पी डी नारायण (सं. 6924264एफ अब जेसी-728762डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन के एम शंकर (सं. 6924265के अब जेसी-728763वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन के एस दिनकर (सं. 6924271एक्स अब जेसी-728764एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन एस एल के डी राव (सं. 6924277वाई अब जेसी-728765के), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस डी बी राव (सं. 6924280वाई अब जेसी-728766एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन एन जी डी टी लिमबाजी (सं. 6924281एफ अब जेसी-728767पी), 01 जनवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन के डी राव (सं. 6924285एक्स अब जेसी-728768एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन एस आर वोदुरि (सं. 6924286ए अब जेसी-728769ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी ए के धिम्मन (सं. 6924292एन अब जेसी-728770पी), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एन डी सोपानराव (सं. 6924305ए अब जेसी-728771एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस एस नारायण (सं. 6924306एच अब जेसी-728772ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस एस कुशाग्र (सं. 6924307एल अब जेसी-728773एच), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी डी एन जी राव (सं. 6924312डब्ल्यू अब जेसी-728774एल), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी यू एस ओझा (सं. 6924309डब्ल्यू अब जेसी-728775एन), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी रणधीर सिंह (सं. 6924315के अब जेसी-728776डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी इंद्रजीत यादव (सं. 6922028एफ अब जेसी-728777वाई), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन एस बी अन्ना (सं. 6924326डब्ल्यू अब जेसी-728778एफ), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) वेपन एम ए नामदेव (सं. 6924327वाई अब जेसी-728779के), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) ईएनजीआर पी स्वामी नाथन (सं. 6924379पी अब जेसी-728780वाई), 01 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) ईएनजीआर एस के फारूक जमाल (सं. 6924442वाई अब जेसी-728781एफ), 08 फरवरी 2010

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच (जीडी) टी पी तिवारी (सं. 6922928एल अब जेसी-728782के), 01 जनवरी 2010

हवलदार एसएच (जीडी) भोपाल सिंह (सं. 6922991ए अब जेसी-728783एम), 01 फरवरी 2010

हवलदार एसएच (जीडी) एआरटीएसएन सुरेंद्र सिंह (सं. 6922999एम अब जेसी-728784पी), 01 फरवरी 2010

हवलदार (डब्ल्यूडब्ल्यू) सी बी उपाध्याय (सं. 6921535एच अब जेसी-728785एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार पीटीआरडीईसीटीआर लल्लन प्रसाद (सं. 6921597एच अब जेसी-728786ए), 01 जनवरी 2010

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th June 2010

ARMY BRANCH

No. 327, dated 28th May 2010—The President is pleased to make the following appointments under the provision of AI 3/S/70 (as amended) and AG/PS-2 (a) Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) dated 23 Feb 2007 :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 04 Sep 2009 on relinquishing his SSC wef 04 Sep 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-38039W) (IC-56496M), Mahajan Mahesh Bal, Inf

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 04 Sep 1999

Date for promotion - 04 May 2001

The inter-se-seniority of the officer granted PC in 10th year alongwith the officers of his batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-68 (Non Tech) Course.

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 04 Mar 2010 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 2010 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-38301N) (IC-64939X), Janmejy Mishra, Inf

(SS-38348Y) (IC-64941P), Ashish Kumar Dube, Arty

(SS-38408H) (IC-64942X), B T Ramaiah, Sigs

(SS-38413N) (IC-64943A), Sarkar Abhijeet Bishwanath, AAD

(SS-38442H) (IC-64944H), Ajit Pal Singh, Inf

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 04 Mar 2000

Date for promotion - 04 Nov 2001

The inter-se-seniority of the officer granted PC in 10th year alongwith the officers of their batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-69 (Non Tech) Course.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 12/2001 :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 03 Jul 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 03 Jul 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-39297H) (IC-65473M), Lalbir Singh Dhillon, Inf

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 01 Sep 2001

Date for promotion - 01 May 2003

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 05 years of service)

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 8th year of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Mar 2009, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Mar 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-40519Y) (IC-66041K), Anuj Bindra, EME

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 20 Apr 2002

Date for promotion - 20 Apr 2002

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent

Commission after 5 years of service will remain same as allocated in GN for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Sep 2009, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-40867A) (IC-66180N), Ashish Agarwal, Mech Inf

(SS-40871H) (IC-66183F), Ravinder Singh, Inf

(SS-40875Y) (IC-66186P), Samrat Kaushal, Arty

(SS-41018L) (IC-66270P), Milind Sharma, Arty

(SS-41056F) (IC-66294Y), Sarbjeet Singh, Arty

(SS-41061M) (IC-66298P), Aman Kumar, Mech Inf

(SS-41086Y) (IC-66317P), Ashiq Rishabh, Mech Inf

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 17 Sep 2004

Date for promotion - 17 Apr 2005

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 Mar 2008, on relinquishing his Short Service Commission wef 08 Mar 2008 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-40137P) (IC-65891F), Chandravansh Sharma, AOC

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 08 Mar 2003

Date for promotion - 08 Nov 2003

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of

Lt wef 08 Mar 2008, on relinquishing his Short Service Commission wef 08 Mar 2008 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-40010M) (IC-65813K), Sunjay Kumar, AAD

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 08 Mar 2003

Date for promotion - 08 Nov 2003

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 12/2001 :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

The undermentioned Short Service Commissioned Officer have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 23 Nov 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 23 Nov 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-39644W) (IC-65642H), Abhijeet Mishra, Inf

(SS-39649P) (IC-65643L), Mukesh Kumar Taank, Arty

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 02 Mar 2002

Date for promotion - 02 Nov 2003

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 05 years of service)

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 8th year of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 19 Mar 2010, on relinquishing their Short Service Commission wef 19 Mar 2010 :—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

(SS-41200L) (IC-66378M), Satish Kumar Gautam, AC	(SS-41258H) (IC-66417A), Ajay Dahiya, Inf
(SS-41201N) (IC-66379P), Shailendra Singh Rathore, AC	(SS-41259L) (IC-66418H), Sunil Kumar, Inf
(SS-41204F) (IC-66381M), Washim Ahmed, Arty	(SS-41260A) (IC-66419L), Niranjana, Arty
(SS-41206M) (IC-66382P), Pramod M, Inf	(SS-41263N) (IC-66421H), Anil Kaushik, AC
(SS-41207P) (IC-66383X), Pankaj Sharma, Inf	(SS-41264W) (IC-66422L), Jay Gagan Manhas, AOC
(SS-41208X) (IC-66384A), Bantei Kupar Sawkmie, Inf	(SS-41267K) (IC-66424W), Pandit Chinmay Maheshchandra, Arty
(SS-41210P) (IC-66385H), Pushkar Singh Sirohi, ASC	(SS-41268M) (IC-66425Y), Pradeep Nautiyal, Arty
(SS-41214L) (IC-66386L), Jugmal Singh Vaghela, Inf	(SS-41270K) (IC-66426F), Jagjit Sandhu, Inf
(SS-41216W) (IC-66387N), Karunakar Dimri, Inf	(SS-41271M) (IC-66427K), Salam Premjit Singh, Arty
(SS-41217Y) (IC-66388W), Hemant Yadav, Mech Inf	(SS-41275H) (IC-66429P), Ashok Kumar Tiwari, Inf
(SS-41219K) (IC-66389Y), Manish Jalal, Inf	(SS-41276L) (IC-66430K), Himanshu Issar, AC
(SS-41222K) (IC-66391W), Amit Kumar Chhetri, Inf	(SS-41277N) (IC-66431M), Hartaj Singh, Inf
(SS-41226A) (IC-66395M), A Srinivasulu, Inf	(SS-41281W) (IC-66432P), Karani Singh Bhati, Arty
(SS-41228L) (IC-66396P), S Abilash Nair, Inf	(SS-41283F) (IC-66433X), Rajneesh Joshi, Inf
(SS-41229M) (IC-66397X), Miriyala Naveen, AOC	(SS-41284K) (IC-66434A), T Asuthong, Inf
(SS-41230H) (IC-66398A), Kashid Amit Madhukar, Arty	(SS-41286P) (IC-66435H), Vivek Yadav, AC
(SS-41231L) (IC-66399H), Rakesh Kumar Sharma, Inf	(SS-41290X) (IC-66437N), Joseph Christy Tarfil J, Inf
(SS-41232N) (IC-66400M), Shankar Ram Menon P, Arty	(SS-41295W) (IC-66440N), Jinu Thankappan, Inf
(SS-41233W) (IC-66401P), Kulvir Singh, Arty	(SS-41296Y) (IC-66441W), Sumit, Inf
(SS-41234Y) (IC-66402X), Rajeev Kumar, Inf	(SS-41302F) (IC-66444K), Vikrant Singh, AOC
(SS-41239X) (IC-66403A), L Vincent Patton, Inf	(SS-41306X) (IC-66447X), Vinod Nischal, Arty
(SS-41241P) (IC-66405L), Sunny Gill, ASC	(SS-41307A) (IC-66448A), Samiddha Banerjee, Inf
(SS-41244H) (IC-66408Y), Anand N, Inf	(SS-41308H) (IC-66449H), Tanuj Singh, Arty
(SS-41246N) (IC-66409F), Deshmukh Jaydip Jagannath, Inf	(SS-41309L) (IC-66450X), Deepak Kumar, AC
(SS-41248Y) (IC-66410W), Gurav Bhatnagar, Inf	(SS-41310A) (IC-66451A), Siddharth Sharma, ASC
(SS-41249F) (IC-66411Y), Suraj Abraham, Inf	(SS-41311H) (IC-66452H), Pradeep Sehrawat, Mech Inf
(SS-41250W) (IC-66412F), Mohan Dyandeo Shinde, Arty	(SS-41312L) (IC-66453L), Rajpal Singh, Inf
(SS-41251Y) (IC-66413K), Rohit Sharma, Inf	(SS-41317K) (IC-66455W), Saurabh Bhagwat, Inf
(SS-41255P) (IC-66415P), Arvind Singh, Inf	(SS-41320K) (IC-66456Y), Saibal Roy Chaudhary, Arty
(SS-41256X) (IC-66416X), Shinde Pravin Popat, Inf	(SS-41321M) (IC-66457F), Nagarkoti Narendra Singh, Inf
	(SS-41322P) (IC-66458K), Annappa C Karajagi, Arty
	(SS-41324A) (IC-66459M), Balbir Singh, Mech Inf
	(SS-41328W) (IC-66461K), Jai Negi, Inf
	(SS-41330N) (IC-66462M), Manmath Deora, Inf
	(SS-41338A) (IC-66466H), Ajay Singh, Mech Inf
	(SS-41342H) (IC-66469W), Anand Kumar, ASC
	(SS-41343L) (IC-66470L), Hitendra Pradhan, AOC
	(SS-41345W) (IC-66471N), Utsav Singh, Inf

(SS-41347F) (IC-66472W), Vikas Singh, Arty
 (SS-41350F) (IC-66474F), Abhishek Pal, Inf
 (SS-41351K) (IC-66475K), Y Sharat, Arty
 (SS-41354X) (IC-66477P), Gaurav Kumar, Inf
 (SS-41356H) (IC-66478X), Devendu Ghoshal, Arty
 (SS-41358N) (IC-66480P), Vinod Kumar, AOC
 (SS-41359W) (IC-66481X), Chiplunkar Ameya R, Inf
 (SS-41360L) (IC-66482A), Ranjeet Singh Bhadouriya, Inf
 (SS-41361N) (IC-66483H), Nitin Bhatia, Inf
 (SS-41363Y) (IC-66484L), G Rakul, Arty

The date of Seniority in respect of abovementioned officer will be as follows :—

Date for increments of pay - 19 Mar 2005

Date for promotion - 19 Oct 2005

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

V S RANADE
 Col
 Col MS 7

ARMY BRANCH

No. 328, dated 28th May 2010—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar (GD)

Sub Gurdial Singh (JC-211640N), Formerly Mech Inf, 07 Sep 2008

Sub Surendra Singh (JC-418111N), Formerly Mech Inf, 22 Dec 2008

Sub Joginder Singh (JC-498657Y), Formerly Sikh Regt, 22 Dec 2008

Sub Narayan Singh (JC-428720L), Formerly Punjab Regt, 22 Dec 2008

Sub Jia Lal (JC-579166H), Formerly Jak Rif, 22 Dec 2008

Sub Jagrup Chand Katoh (JC-239484L), Formerly Armd Corps, 22 Dec 2008

Sub Ashok Kumar Maurya (JC-264068M), Formerly Arty Regt, 22 Dec 2008

Sub R Arumai Selvam (JC-306534A), Formerly Meg, 25 Apr 2009

In the rank of Nb Sub (GD)

Nb Sub Bikram Kumar (JC-429122A), Formerly Punjab Regt, 07 Jan 2008

Nb Sub Chandrika Singh Kushawaha (JC-842380M), Formerly Navy, 14 Jul 2008

Nb Sub Lekh Raj (JC-518356Y), Formerly Dogra Regt, 22 Dec 2008

Nb Sub Sarvesh Singh (JC-225400F), Formerly Arty Regt, 22 Dec 2008

Nb Sub Dimbeswar Kakati (JC-548009P), Formerly Assam Regt, 22 Dec 2008

Nb Sub Rajendra Bahadur Singh (JC-479045M), Formerly Rajput, 22 Dec 2008

Nb Sub Gurmit Singh (JC-349129W), Formerly Bombay Engr Group, 22 Dec 2008

Nb Sub Thakur Singh (JC-539189F), Formerly Kumaon Regt, 22 Dec 2008

Nb Sub Muni Samy G (JC-663666L), Formerly ASC, 22 Dec 2008

PRADEEP KUMAR
 Under Secy

No. 239, dated 28th May 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No. Name, Arms

IC-56602 Prashant Mahlawat, AC

IC-56603 Nishant Sharma, Mech Inf

IC-56604 Rahul Kesar, ADA

IC-56605 Nageendra Rawat, Mech Inf

IC-56606 AR Ramakrishnan, Engrs

IC-56609 Amit Sangwan, Engrs

IC-56610 Gautam Desai, Inf

IC-56611 Dinesh Singh, Inf

IC-56613 Nipun Anand, Arty

IC-56614 Sumeet Arya, Arty

IC-56615 Hardeep Sandhu, Engrs

IC-56617 Ravi Kumar, ASC

IC-56619 Sandeep Kumar Rakesh, Inf

IC-56620 Maninder Pal Singh, Inf	IC-56676 Devinder Chaudhary, ASC
IC-56621 Surinder Singh Malik, Arty	IC-56677 Rajesh Gupta, Engrs
IC-56622 Amit K Sharma, Inf	IC-56678 Paramjit Singh, AOC
IC-56623 Salil Lama, AC	IC-56679 Sanjeet Singh, Engrs
IC-56624 Rajesh Nambiar, Mech Inf	IC-56680 Inder Pal Singh, AC
IC-56625 Manish Wahi, Arty	IC-56682 Deepak Choube, Inf
IC-56626 Vinay Dhaka, EME	IC-56683 Dharmendra Singh, Engrs
IC-56627 Pankaj Sharma, EME	IC-56684 Siddhartha Varma, Engrs
IC-56630 Manish Sharma, Arty	IC-56685 Jai Singh Bhatti, Int
IC-56631 Sonender Singh, Engrs	IC-56686 V Anandan, Sigs
IC-56632 Manoj Kumar, EME	IC-56687 Anil Kumar Tripathi, ASC
IC-56635 Vinay Gupta, Sigs	IC-56688 Hardip Singh Bhullar, AC
IC-56638 Deepak Sisodia, EME	IC-56689 Sandeep Singh Aulakh, Inf
IC-56639 Joe Sabby, Inf	IC-56690 Deepak Rishi, AOC
IC-56640 Vivek Rawat, AC	IC-56691 Tapas Mandal, Inf
IC-56641 Jiten Krishan Kumar, AD Arty	IC-56692 Neeraj Saini, ASC
IC-56642 Vikramjit Singh Nat, Arty	IC-56693 Aniruddh Wale, Inf
IC-56645 Navneet Chail, Arty	IC-56694 Gururaj Kulkarni, Arty
IC-56646 Vakil Kumar, Int	IC-56695 K Joshil Raj, Engrs
IC-56647 Sanjeev Kumar Anand, Inf	IC-56696 Nikhil Sinha, Sigs
IC-56648 Sarang Apte, Inf	IC-56698 Amit Awasthi, EME
IC-56649 Ranjit Kumar, Sigs	IC-56703 Sandeep Singh Kumar, EME
IC-56651 Ravinder Singh Chib, ASC	IC-56705 Navroop Singh Kahlon, AOC
IC-56654 Devender Kumar Malik, Inf	IC-56706 Jaten Jhingan, Sigs
IC-56655 Sukhjinder Singh, EME	IC-56707 Vrijendra Singh, Inf
IC-56656 Amitoz Singh, Inf	IC-56708 Sudheera KP, Inf
IC-56657 Rohit Uniyal, EME	IC-56709 Manish Kumar, Arty
IC-56659 Pankaj Kaushik, Arty	IC-56713 Rohit Khanna, Inf
IC-56660 Sarma Sanjeev Vijay Kumar, Arty	IC-56714 Vishal Goindi, AC
IC-56661 Kanwar Sandip Pal Singh Sodhi, Sigs	IC-56715 Sachin Bhushan, EME
IC-56662 Kulvinder Singh Grewal, Inf	IC-56716 Himanshu Pundir, Engrs
IC-56663 Anil Kumar Gupta, Inf	IC-56717 Sayeeshwar Alagappa, AOC
IC-56665 Muncesh Jasrotia, ASC	IC-56718 Sudip Chatterjee, Arty
IC-56666 Harprit Singh Lamba, EME	IC-56723 Sandeep Malik, ASC
IC-56670 Alok Kumar, AC	IC-56724 Bipin Bahadur Singh, Inf
IC-56672 Sumesh Paentia, Mech Inf	IC-56725 Amit Sood, AC
IC-56673 Vikas Raj Gupta, AD Arty	IC-56726 Erla Rama Narasimma Prasad, AC
IC-56674 Samit Batra, EME	IC-56727 Syed Faisal Ahmad, Mech Inf
IC-56675 Vishal Dubey, Inf	IC-56728 Harmeet Singh Kapoor, Inf

IC-56730 Alhad Suresh Pendharkar, Arty	IC-56775 Bhalender Singh Bhullar, Arty
IC-56731 Sandeep Kumar, Engrs	IC-56776 Anai Shankar, Inf
IC-56732 Vikram Subramanyam, EME	IC-56777 Prashant Sharma, ASC
IC-56733 Shashi Mohan Shrivastava, AD Arty	IC-56778 Puneet Kumar Engrs
IC-56734 Indra Singh Chauhan, Engrs	IC-56780 Kanwar Raneshwar Singh, AD Arty
IC-56736 Rajbir Singh, Inf	IC-56781 Shakher Goyal, EME
IC-56737 Pushkar Raj, Arty	IC-56782 Himanshu Tiwari, Arty
IC-56738 Sudeepta Ghosh, Inf	IC-56783 Bakshi Rajeev Shambhunath, ASC
IC-56739 Kuldeep Singh Mehra, ASC	IC-56784 Tejvir Singh, Inf
IC-56740 Krishna Kant Sharma, EME	IC-56785 Abhishay Adhikari, Engrs
IC-56741 Murai Rajendra Singh Shankarlal, Engrs	IC-56786 MM Hussain Junaidi, Arty
IC-56743 Lovelesh Panghal, AOC	IC-56787 Gurkirpal Singh, ASC
IC-56744 Ajay Dalal, AC	IC-56788 Yengkokpam Ajit Kumar Singh, Arty
IC-56745 Jangvir Lamba, ASC	IC-56790 Sunil Kumar, Inf
IC-56746 Rajesh Kumar Thakur, EME	IC-56791 Kaustubh, Arty
IC-56747 Vijay Pandey, Inf	IC-56792 Paras Tomar, Inf
IC-56748 Sumit Kochhar, AD Arty	IC-56793 Yogesh Joshi, Inf
IC-56749 Dheeraj Sethi, Arty	IC-56795 Probal Ghosh, Inf
IC-56751 Girisha Upadhyay, Inf	IC-56796 Harshwardhan Singh, AOC
IC-56752 Vijay Anand Joshi, ASC	IC-56797 Jitender Singh, EME
IC-56754 Chann Preet Singh, Sigs	IC-56798 Kumar Umashanker, AD Arty
IC-56755 Parminder Singh, Arty	IC-56799 Sanjeev Kohli, Arty
IC-56756 Harpreet Singh, AC	IC-56800 Parveen Kumar, EME
IC-56757 Manjinder Pal Singh, Engrs	IC-56801 Vipul Saini, AC
IC-56758 Swapan Sethi, Inf	IC-56802 Rahul Sharma, Inf
IC-56759 Janmejaya S, ASC	IC-56803 Anujendra Singh Antal, Inf
IC-56760 Harish Kumar, EME	IC-56804 Sukhvinder Singh, Engrs
IC-56761 Ajay Tomar, AOC	IC-56806 Suveer Seth, Inf
IC-56762 Naresh Kumar Sangwan, Inf	IC-56808 K Anil Kumar, Inf
IC-56763 Subhedar Salim Mulka, Arty	IC-56811 Prabath Shankar Chandra Shekhar, Sigs
IC-56764 M Sai Bhushan, Arty	IC-56812 Rahul Mohan Seth, Inf
IC-56766 Shyam Singh Shekhawat, ASC	IC-56813 Rohit Joshi, Inf
IC-56768 Preet Baljit Singh Sra, Inf	IC-56814 Ajay Coutinho, Arty
IC-56769 Anshuman Saxena, AOC	IC-56815 Vivek Joshi, Inf
IC-56770 Ratnadip Das, Arty	IC-56816 Sanat Kabi, Inf
IC-56771 Jaswinder Singh Rahil, Arty	IC-56819 Pankaj Ahuja, EME
IC-56772 Pragadish S, ASC	IC-56821 Ravi Pal Singh Rana, Engrs
IC-56773 Saravanan G, EME	IC-56822 Mohit Rao, Inf
IC-56774 Paramjit Singh Bakshi, Arty	IC-56823 Arun Jaggi, Arty
	IC-56824 Vishal Sharma, Arty

IC-56825 Prashant Malhotra, EME	IC-56877 Abhijat Kashyap, AC
IC-56826 Tejpal Singh Rana, EME	IC-56878 Harmeet Singh Ahluwalia, Arty
IC-56828 D Mukherjee, Sigs	IC-56879 Amit Nigam, Engrs
IC-56829 Manish Garg, Engrs	IC-56880 Sandeep Chandel, AD Arty
IC-56830 Gaurav Singh, AOC	IC-56881 Sambit Acharya, EME
IC-56831 Maruti Mishra, Arty	IC-56883 Vashnu Pratap Singh, AC
IC-56832 Harish Rana, ASC	IC-56884 Avinash Verma, Inf
IC-56833 Ashish Dhingra, Engrs	IC-56886 Vikas Prabhakar, Sigs
IC-56834 Chandola Atul Ramesh, Engrs	IC-56887 Dhruvjyoti Chanda, Inf
IC-56835 Chander Kant Sharma, Inf	IC-56889 Karpaljit Singh, ASC
IC-56836 Ajay Uniyal, Inf	IC-56890 Dhirender Singh Kapoor, EME
IC-56838 Sumit Kumar Sharma, Inf	IC-56891 Sandeep Sharma, Arty
IC-56840 Delin Mathew, ASC	IC-56892 Maninder Singh Chouhan, Inf
IC-56841 Mohamad Shoaib Khan, Inf	IC-56893 Vivek Singh Dhanai, EME
IC-56842 Nitin Kaul, Sigs	IC-56895 Vikrant Singh, ASC
IC-56843 Amit Bhatnagar, AC	IC-56896 Sunil Rawat, Inf
IC-56844 Prabhat Kohli, Arty	IC-56897 Himanshu Kalia, Arty
IC-56849 Suresh G, EME	IC-56898 Genesh V Raghavan, Mech Inf
IC-56851 Sharique Ahmad Khan, Arty	IC-56899 Sandeep Bisht, AOC
IC-56853 Irfan G Collinson, Mech Inf	IC-56900 Shikhar Jaiswal, Inf
IC-56855 Sandesh Sadanand Amin, AOC	IC-56901 Deepak Anand, AC
IC-56856 Omeesh Singh Rathore, ASC	IC-56902 Abhijit Babasaheb Adgaonkar, Arty
IC-56857 Sameer Sinha, Inf	IC-56903 Nandan Singh Dangwal, Inf
IC-56858 Rahul Rajput, Engrs	IC-56905 Amit Vig, Arty
IC-56859 Gunjan, EME	IC-56912, Mahesh Partap Singh, AEC
IC-56860 Anshuman Sharma, Inf	IC-56918 Trithankar Chakravarty, AEC
IC-56861 Kanwal Kishore, Inf	IC-56919 Ashish Dobhal, Inf
IC-56862 Kaushik Sarkar, Engrs	
IC-56863 Rakesh Pathak, Engrs	IC-58561 Raghunath Singh Minhas, Sigs
IC-56865 Manish Singh Rathore, Inf	IC-58562 Sarabpreet Singh, Sigs
IC-56867 Sarsar Mukund Madhavrao, EME	IC-58563 Ashish Kumar Rohankar, Engrs
IC-56868 Anil Kumar Singh Patial, Inf	IC-58564 MV Sooraj, EME
IC-56869 Ravi Kumar, Inf	IC-58566 Sandeep Bajaj, Sigs
IC-56870 Manvender Vinayak, ADA	IC-58567 Pankaj Sharma, Sigs
IC-56871 Sajal Thapa, ASC	IC-58569 Harendra Kumar, EME
IC-56873 Pradeep Negi, EME	IC-58570 Deven Gopal Lal Makhija, Sigs
IC-56874 Saikit Sarkar, Sigs	IC-58571 Manmohan Singh Sidhu, Engrs
IC-56875 Jasjit Singh, Inf	IC-58572 Janardhanam K, Engrs
IC-56876 Akshay Kumar Singh Rana, AOC	IC-58573 Bikramjit Singh, Sigs

—07 Dec 2009

IC-58574 Sanjeeb Dutta, Engrs	IC-63389 Pranay Padmakar Pawar, Inf
IC-58575 Gurjeet Singh, Engrs	IC-63390 Bhagwan Singh Bisht, Inf
IC-58577 Siddharth Shankar Patnaik, Engrs	IC-63392 Akhil Dogra, Arty
IC-58580 Anuj Kumar Singh, EME	IC-63393 Pankaj Kumar, Inf
IC-58581 Sharad Chand Singh, Engrs	IC-63394 Gursharan Singh, AOC
IC-58582 Sumit Atri, Engrs	IC-63395 Rohit Shirish Pathak, Arty
IC-58584 Rohit Sharma, Sigs	IC-63396 Sushil Kumar Mishra, Inf
IC-58586 Anshu Kumar Gupta, EME	IC-63397 Umang Kumar, Arty
IC-58587 S Rajesh Iyer, Engrs	IC-63398 Raj Abhinav, Inf
IC-58588 Aninder Jit Singh, EME	IC-63399 Manohar Anant Deshmukh, Inf
IC-58589 Neeraj Kumar Singh, Sigs	IC-63400 Manish Shukla, Arty
—12 Dec 2009	IC-63401 Karande Sumit Ganpat, Arty
IC-54843 Suresh Narayanan, Engrs	IC-63402 Kapil Dev Singh, Inf
—03 Nov 2008	IC-63403 Bheemaiah PS, Inf
Capt to be Maj	IC-63404 Mukul Sati, Inf
IC No., Name & Arm	IC-63405 Pradeep Singh Mehra, Inf
IC-63367 Rohit Sambal, Inf	IC-63406 Shreekant Amdoskar Raghunath, Inf
IC-63368 Anupam Singh, ASC	IC-63407 Ranjeet Narayan, Inf
IC-63369 Bhaskar Shukla, AC	IC-63408 Umesh Chandra Sati, Inf
IC-63370 Pankaj Bhatt, Inf	IC-63409 N N Venkata Sriram, Inf
IC-63371 Jagdeep Prakash Rana, Mech	IC-63410 Abhishek Gupta, Inf
IC-63372 Prateek Narula, EME	IC-63411 Sunil Kumar Sharma, Inf
IC-63373 Pankaj Kumar Singh, AD	IC-63412 Amit Kumar Yadav, Inf
IC-63374 Bhamare Abhijit Rang Rao, Inf	IC-63413 Rupinder Singh, Inf
IC-63375 Manoj Kumar Bhardwaj, Arty	IC-63414 Himanshu Thapa, Inf
IC-63376 Vikram Singh Ghuman, AC	IC-63415 Satish Kumar Mudgal, ASC
IC-63377 Kulkarni Aniruddha Ramchandra, Arty	IC-63416 Shailesh Singh Pawar, Inf
IC-63378 Pankaj Modgil, Arty	IC-63417 KB Nitin Nair, Inf
IC-63379 Pradeep Singh Saun, Inf	IC-63418 Vikrant Mittal, Mech
IC-63380 Bibhu Phalguni Dash Sharma, Inf	IC-63419 Mehul Saklani, Inf
IC-63381 Sumit Legwal, Inf	IC-63420 Prabhdeep Singh Atwal, Inf
IC-63382 Vishal Mahajan, Inf	IC-63421 Tarun Singh Jamwal, Mech
IC-63383 Shishir Srivastava, Inf	IC-63422 Sorakattula Jyotish Kumar, Inf
IC-63384 Gaurav Solanki, Inf	IC-63423 Amit Kumar Das, AD
IC-63385 Ankur Kaushal, AC	IC-63424 Ajay Mohan, AC
IC-63386 Rahul Gautam, Inf	IC-63425 Amitendra Kumar Singh, Arty
IC-63387 Sanket Baweja, Inf	IC-63426 Amit Jyoti Lahkar, Inf
IC-63388 Vijay Kumar, Inf	

IC-63427 Saket Bhardwaj, Inf	IC-63471 Pradeep Kumar Thapa, Engrs
IC-63428 Jagdish Prasad, AEC	IC-63472 Ravikant, Inf
IC-63429 Prasad A Bansod, Inf	IC-63473 Ashish C Thomas, Arty
IC-63430 Mukesh Kumar Rana, Inf	IC-63474 Nitesh Kumar, Inf
IC-63431 Brijesh Singh Chauhan, Arty	IC-63476 Kumar Adarsh, Inf
IC-63432 Vijay Pratap Singh Shekhawat, Inf	IC-63477 Anant Gupta, Inf
IC-63433 Niyaz Ahmed, AOC	IC-63478 Arun Kumar Singh, Inf
IC-63434 Binit Kumar, Inf	IC-63479 Rajender Singh Jamwal, Inf
IC-63435 Manish Kumar, AC	IC-63480 Pattarkine Mayur Mohanrao, Inf
IC-63436 Ajay Bahadur Saxena Sangma, Inf	IC-63481 Sanjay Singh, Inf
IC-63437 Sajay Hajra, Inf	IC-63482 Raoul Pallat Ramesh, AC
IC-63438 Sachin Kumar Thapa, Inf	IC-63483 Rajib Kumar Bal, AOC
IC-63439 Amit Mahajan, Arty	IC-63484 Nandan Singh, ASC
IC-63440 Mahesh Khot, Arty	IC-63485 Jibin Paul, Arty
IC-63441 Manoj Singh, Inf	IC-63486 Manish Gupta, Inf
IC-63442 Siddhartha Anand, Inf	IC-63487 Santosh Yashwant Kumkar, Arty
IC-63443 Ajay Marar GK, Inf	IC-63488 Zala Ajitkumar Arshibhai, Inf
IC-63444 Sachin Kumar Tanaji Nikam, Inf	IC-63489 Ajitpal Singh Randhawa, Inf
IC-63445 Prabin Kumar Jha, Engrs	IC-63490 Kailash Singh Negi, AOC
IC-63446 Parthasaradi Pathrudu PA, Inf	IC-63491 Arjun Singh, Arty
IC-63447 Suraj Prakash Jagtap, Inf	IC-63492 Arun Sharma, Inf
IC-63448 Anshuman Patial, Inf	IC-63493 Lovendra Singh Chaudhary, ASC
IC-63449 Sandeep Singh Lamba, ASC	IC-63494 Piyush, Inf
IC-63451 Tan Bahadur Gurung, Inf	IC-63495 Varun Pathak, Inf
IC-63452 Ahindra Dey, Inf	IC-63496 Sameer Chatterjee, Inf
IC-63454 Mayank Chandola, Inf	IC-63497 Deepanshu Machhain, AC
IC-63457 Rajat Singh Panwar, Inf	IC-63498 Raghuvendra Singh, Inf
IC-63458 Abhinav Saxena, Arty	IC-63499 Kamakhya Singh, Inf
IC-63461 Kashyap Krishnan, Inf	IC-63500 Nitin Choudhary, Arty
IC-63462 Kedar Dattatraya Gupte, Inf	IC-63501 Sanjoy Mallick, Inf
IC-63463 Savin Sam, Inf	IC-63502 Himanshu Mitra, Arty
IC-63464 Dharmesh Singh Chauhan, Inf	IC-63503 Bharat Sharma, Inf
IC-63465 Shikhar Srivastava, Inf	IC-63504 Sunil Sharma, Arty
IC-63466 Abhinav Bakshi, Inf	IC-63505 Rajender Singh Karakoti, Inf
IC-63468 Arjun N Singh, AC	IC-63506 Nitin Shanker Pathak, AOC
IC-63469 Nakshatra Bhandari, Inf	IC-63507 Ajitkumar Mahadeo Waghmode, Inf
IC-63470 Kamaljit Singh Ahlowalia, AOC	IC-63508 Pawan Singh, Arty

IC-63510 Neeraj Kumar, Sigs	IC-63548 Vishal Sharma, Inf
IC-63511 Sandeep Seal, Inf	IC-63549 Dhiraj Prasad Sharma, ASC
IC-63512 Surjo Deepto Surray, Inf	IC-63550 Gajendra Singh Rawat, EME
IC-63513 Rajarao Alukapally, Inf	IC-63551 Amit Mishra, AOC
IC-63514 Rajlok Singh Mehta, Mech	IC-63552 Pankaj Dahiya, Int
IC-63515 Munish Rana, Inf	IC-63553 Sanjeev Kumar Tripathi, Arty
IC-63516 Uday Krishna, AOC	IC-63554 Arwinder Singh, Arty
IC-63517 Kuldeep Singh, Inf	IC-63555 Abhay Singh, Inf
IC-63518 Mohammad Zeeshan Khan, Inf	IC-63556 Praveen Sangwan, Inf
IC-63519 Nakul Singh, ASC	IC-63557 Anurag Asthana, Inf
IC-63520 Ravinder Singh, AOC	IC-63558 Tushar Sharma, Inf
IC-63521 Swapnil Suryakant Ghag, Inf	IC-63559 Harsh Vardhan, Arty
IC-63522 Kaustubh Dhagat, Inf	IC-63560 Manish Kumar Singh, AEC
IC-63523 Anurag Singh, Arty	IC-63561 Rajul Singh, Arty
IC-63524 Kulbhushan Khanoria, AD	IC-63562 Jai Kumar Venkatesh Mudliar, Inf
IC-63525 Abhishek Sharma, Arty	IC-63564 Ranjeet Rathee, Inf
IC-63526 Sameer Chaudhary, AC	IC-63565 Peeyush Shukla, Engrs
IC-63527 Anil Singh Chauhan, Mech	IC-63566 A Babu, Sigs
IC-63528 Arvind Kumar, Inf	IC-63567 Vikram Pal Singh, ASC
IC-63529 Rippon Bora, Inf	IC-63568 Rishikesh Prakash Suryawanshi, Arty
IC-63530 Vithun Mohan, ASC	IC-63569 Zenith Abujam, Inf
IC-63531 Chetan Vijay Dhawad, Engrs	IC-63570 Sunil Rangra, Mech
IC-63532 Pradeep Singh Bura, Arty	IC-63571 Deepak Mendiratta, Inf
IC-63534 Keats K Das, Inf	IC-63572 V Sreejith, Inf
IC-63535 Rupam Sharma, Inf	IC-63573 Paramjeet Singh, Inf
IC-63536 Ashwani Kumar, Inf	IC-63574 S Samarjit Sharma, Inf
IC-63537 Virender Singh, Arty	IC-63575 Ananda Bose, Inf
IC-63538 Rahul Pratap Singh, Inf	IC-63576 Rohit Bali, ASC
IC-63539 Mithun Mishra, Inf	IC-63577 Biswas Pranabkumar Prashant, Arty
IC-63540 Rajendra Singh, AOC	IC-63578 Vijay Kumar Mukhraiya, AC
IC-63541 Aditya Sansi, Arty	IC-63579 Gunwant Singh Ghai, Mech
IC-63542 Manish Chandel, Inf	IC-63580 Mudassar Iqbal, Inf
IC-63543 Parivesh Maithani, Inf	IC-63581 Piyush Kharbanda, Arty
IC-63544 Harvinder Singh, Mech	IC-63582 Sachin Srivastava, Inf
IC-63545 Padi Batt, Inf	IC-63583 Amarinder Jit Singh, Arty
IC-63546 Uday Shankar Das, EME	IC-63584 Abhishek Chauhan, Inf
IC-63547 Saurabh Singh, Inf	IC-63585 Vimal Sharma, Inf
	IC-63586 Ravin Juneja, Inf
	IC-63587 V Ramanathan, Inf

IC-63588 Tushar Rawat, Sigs	IC-63629 Saurabh Aithmian, Inf
IC-63589 Prabhakar Bahuguna, Inf	IC-63630 Vivek Kumar, Arty
IC-63590 Ravi Srivastava, Arty	IC-63631 Subir Mathur, Mech
IC-63591 C Sandeep, Arty	IC-63633 Ritesh Roy, Inf
IC-63592 Omkar Shirish Bapat, Inf	IC-63634 SM Riyaz, AC
IC-63593 Ankur Singh Chib, ASC	IC-63635 Manpreet Singh, Inf
IC-63594 Madhusudan Reddy, AOC	IC-63636 Chetan Arun Kadam, Inf
IC-63595 Saini Sumeet Parasram, Int	IC-63637 Vinod NP, Inf
IC-63596 Arvind Prakash, Arty	IC-63639 Jagmeet Singh, Inf
IC-63597 Sanjiva Kumar, AC	IC-63640 Rajesh Pratap Singh, Inf
IC-63598 Tushar Singh Khatri, Inf	IC-63641 Rajesh Katarya, Arty
IC-63599 Sushil Singh, AC	IC-63642 S Abilash, Inf
IC-63600 Deepak Tyagi, Arty	IC-63643 Rupinder Singh, Inf
IC-63601 Udai Bhanu Singh, Inf	IC-63644 Nair Sreejit Rajan, AD
IC-63602 Gaurav Vashishtha, Inf	IC-63645 Kaustav Mohanti, AC
IC-63603 Digamber Singh Negi, Inf	IC-63646 Sumit Arora, Inf
IC-63604 Amit Kumar Tyagi, Inf	IC-63647 Suminder Singh, Arty
IC-63605 Aditya Mohan, AC	IC-63648 Bharat Arun, Inf
IC-63606 Ankit Sharma Tugnait, Inf	IC-63651 Amit Vyas, AOC
IC-63607 Navneet Singh, Inf	IC-63652 Amit Kumar Singh, Sigs
IC-63608 Virendra Singh Chowdhary, Inf	IC-63653 Vivek Bhagwat Rao Bandal, Engrs
IC-63609 Vaibhava Bhargava, Inf	IC-63654 Shakti Kiran Mukund, Engrs
IC-63610 Rohit Dutta, AD	IC-63655 Sri Prakash Choudhary, Sigs
IC-63612 Saptarshi Gupta, Inf	IC-63656 Krishna Kant Sharma, EME
IC-63613 Sameer Srivastava, Inf	IC-63657 C Sasi Kumar, Engrs
IC-63614 Jatin Mittal, Inf	IC-63658 Ashish Dogra, EME
IC-63615 Rishi Raj Singh, ASC	IC-63659 Sandeep Singh, EME
IC-63616 D Vinay Reddy, Inf	IC-63660 Mahesh Vyas, EME
IC-63617 Gagan Kumar, Arty	IC-63661 Amit Atul, Sigs
IC-63618 Lovedeep Singh Saini, Inf	IC-63662 Ratish Raj, Engrs
IC-63620 M Nagaraj, Inf	IC-63663 Anuj Kumar Gupta, Engrs
IC-63621 Anurag Gulia, Inf	IC-63664 Shaishav Srivastava, Engrs
IC-63622 Ranjan Pandey, Inf	IC-63665 Abhinav Chaudhary, EME
IC-63623 Rakyansh Yaduvanshi, Inf	IC-63666 Neeraj Ashok Dhoran, Sigs
IC-63624 Dinesan Jothish, Inf	IC-63667 Vaibhav Mangesh Apte, Sigs
IC-63625 Dheeraj Pratap Singh, Inf	IC-63668 Ankur Mittal, Engrs
IC-63626 Vishal Pagaria, Inf	IC-63669 Shukla Ashish Sindhu Nath, EME
IC-63627 Rajendra Singh Bhadauria, Inf	IC-63670 Abhyudaya Pant, Engrs
IC-63628 Abhishek Vikram Singh, Inf	IC-63671 Rakesh Kumar, EME

IC-63672 Raman Pruthi, Sigs
 IC-63674 Abhinav Sharma, Sigs
 IC-63675 Rohit Bedi, EME
 IC-63676 Abhishek Singh Maurya, Sigs
 IC-63677 Rishabh Arjaria, Engrs
 IC-63678 Aman Bhardwaj, Engrs
 IC-63679 Shaikat Gupta, Sigs
 IC-63680 Akshay Khanna, Engrs
 IC-63681 Abhishek Tewary, EME
 IC-63682 Indrajit Das, Sigs
 IC-63683 Navin Kumar Mishra, EME
 IC-63684 Vikram Raoso Patil, EME
 IC-63685 Gurtej Singh, Engrs
 IC-63686 Ashwani Sharma, EME
 IC-63687 Mohit Dhingra, Engrs
 IC-63688 Nitin Nagar, Engrs
 IC-63689 A Sathya Moorthi, Sigs
 IC-63690 Satyajit Ghosh, EME
 IC-63691 Pravin Sakharam Sardar, Engrs
 IC-63692 Divya Aditya, EME
 IC-63693 Ravi Kumar Tripathi, Engrs
 IC-63694 R Ajit Keerthi, Engrs
 IC-63695 Nikhil Madhav Khanzode, Engrs
 IC-63696 Arijit Bhattacharjee, EME
 IC-63697 Vaibhav Gupta, Engrs
 IC-63698 Sujeet B Bhosale, EME
 IC-63699 T Prashant Pavithran, EME
 IC-63700 Manoj Kumar Malakar, Engrs
 IC-63701 Nithin Kuriakose, Engrs
 IC-63702 Pradeep Kumar SV, Engrs
 IC-63703 Dabhi Nirav Madar Sinh, Sigs
 IC-63704 Akhil Singhal, Engrs
 IC-63705 Ashwani Singh, EME
 IC-63706 Abhinav Koshal, Sigs
 IC-63707 Gaurav Malik, EME
 IC-63709 Amardeep Pahal, EME
 IC-63710 Ashish Nautiyal, Sigs
 IC-63711 Muni Chadha, Sigs
 IC-63712 Salil Jain, Engrs

IC-63713 Amit Ramesh Joshi, Sigs
 IC-63714 Vishal Ahuja, Sigs
 IC-63715 Mayank Sambyal, Engrs
 IC-63716 Rahul Juyal, Sigs
 IC-63717 Bhaskar Jha, Engrs
 IC-63718 Vikrant Kumar Jaitly, Inf
 IC-63719 Anurag Ahuja, EME
 IC-63720 Prasanna Kumar Padhan, Engrs
 IC-63721 Bhaskar Saxena, Sigs
 IC-63722 Sudhir Jha, Engrs
 IC-63723 Jayasankar M, EME
 IC-63728 Shiv Pratap Singh Chauhan, AEC
 IC-63736 Gaurav Sood, AEC
 IC-63745 Dinesh Sharma, AEC
 IC-63759 Sandireddy Mohan Rao Ramaiah, AEC

—13 Dec 2009

IC-67825 Ravinder Kumar, Sigs
 IC-67826 Kuljeet Singh Tanwar, Sigs
 IC-67827 Suresh Kumar TP, AAD
 IC-67828 Deepankar Sahel, Sigs
 IC-67829 Baljeet Singh Cheema, EME
 IC-67831 Rakesh Singh, Engrs
 IC-67832 Hanwant Lal, Arty
 IC-67833 Vijay Koul, Arty
 IC-67834 Lalit Kumar, Arty
 IC-67835 Rajeev Chaudhary, EME
 IC-67838 Simran Singh Bhatti, AC
 IC-67839 Dara Singh Vohra, Sigs
 IC-67842 Prabahan Baruah, Engrs
 IC-67844 Vivek Negi, EME
 IC-67845 Puneet Vats, EME
 IC-67847 Yograj Ingale, AAD
 IC-67848 Abhishek Kumar Singh, Arty
 IC-67851 Deepak Kumar Sharma, EME
 IC-67852 Varun Tandon, Engrs
 IC-67853 Arpan Ghai, EME
 IC-67854 Jitendra Kushire, Sigs
 IC-67855 Akash Raj Sanman, EME
 IC-67857 Ashvinder Pal Singh, Arty

IC-67858 Abhishek Lal, Arty
 IC-67859 Kanwar Amardeep Grewal, Engrs
 IC-67860 S Kartik Raja, Arty
 IC-67861 Abhishek Negi, Arty
 IC-67862 Vishal Kapoor, Sigs
 IC-67863 Shantanu Ghatak, EME
 IC-67864 Prayas Pandey, AC
 IC-67865 Navdeep Mittal, Sigs
 IC-67866 Patel Vinay Manibhai, Engrs
 IC-67867 Prakash Anandan, EME
 IC-67868 Shubhajit Chakrabarty, Engrs
 IC-67869 Sapkal Vinayak Ramchandra, EME
 IC-67871 Patial Nitish, AC
 IC-67873 Gajender S Dabaas, Sigs
 IC-67874 Gyanendra Singh, Sigs
 IC-67875 Navneet Singh Lohit, AAD
 IC-67876 Arindam Gupta, Engrs
 IC-67877 Abhishek Trivedi, AC
 IC-67880 Sanjeev Kaushal, Sigs
 IC-67882 Deepak Kumar Mohapatra, EME

—14 Dec 2009

JASWANT SINGH
 Jt Dir
 MS-8C

ARMY BRANCH

No. 330, dated 28th May 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Rajender Singh Lamba (JC-840484P), 01 Nov 2009
 Sub Joginder Singh (JC-220798X), 01 Feb 2010

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Shyam Singh (JC-206001H), 01 May 2009
 Nb Sub Dil Bahadur Sunari Thapa (JC-841307F), 01 Sep 2009
 Nb Sub Khem Singh (JC-259350N), 01 Oct 2009
 Nb Sub Abdul Satar (JC-192901Y), 01 Jan 2010
 Nb Sub Hariharan P (JC-438096L), 01 Feb 2010

Nb Sub Venkidachalam S (JC-438614A), 01 Feb 2010
 Nb Sub Som Datta (JC-754703F), 01 Feb 2010
 Nb Sub Dharam Singh (JC-508563X), 01 Feb 2010
 Nb Sub Tarkeshwar Singh (JC-662500X), 01 Feb 2010
 Nb Sub Ghan Shyam Gurung (JC-841405F), 01 Feb 2010

PRADEEP KUMAR
 Under Secy

No. 331, dated 31st May 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar

Sub Parab Anant Kanta (JC-826165X), 01 Sep 2009
 Sub Mohan Lal (JC-826166A), 01 Sep 2009
 Sub Sanjiv Kumar (JC-826167H), 01 Sep 2009
 Sub Suram Singh (JC-826168L), 01 Oct 2009
 Sub Hem Singh (JC-826169N), 01 Nov 2009
 Sub Samay Singh (JC-826170H), 01 Dec 2009
 Sub Kamal Kishore (JC-826171L), 01 Jan 2010
 Sub Tilak Bahadur Kuwar (JC-826174Y), 01 Feb 2010
 Sub Jesmer Singh (JC-826175F), 01 Feb 2010
 Sub George Kutty VJ (JC-826176K), 01 Feb 2010
 Sub Daljit Singh (JC-826177M), 01 Feb 2010

To be Nb Sub

BHM Uttakar Vijay Rajaram (No. 2782858Y now JC-826219N), 01 Sep 2009

BHM Dilip Kumar Acharya (No. 6382442M now JC-826220H), 01 Sep 2009

BHM Jayaraman V (No. 6384531K now JC-826221L), 01 Sep 2009

BHM Sunil Kumar KN (No. 1575717F now JC-826222N), 01 Oct 2009

BHM N Sathiyabalan (No. 1383900P now JC-826223W), 03 Nov 2009/01 Nov 2009*

BHM Balwant Singh (No. 3987557Y now JC-826224Y), 01 Dec 2009

BHM Sunil Bhagwan More (No. 2780638W now JC-826225F), 01 Jan 2010

BHM P Jayaraj (No. 14398295K now JC-826226K), 01 Feb 2010

BHM A Mayavel (No. 14396383F now JC-826227M),
01 Feb 2010

*Date of Seniority

P P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 332, dated 31st May 2010—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY (ARMY MEDICAL CORPS)

To be Substantive Nb Sub Clk (GD)

Hav Hukum Chand (No. 13961454A now JC-696975N),
13 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007
without effect on pay and allces)

Hav Om Prakash (No. 13962338K now JC-696996K),
05 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008
without effect on pay and allces)

Hav Manoj Kumar Rai (No. 13978108A now JC-696976W),
13 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay and allces)

Hav Sukhdev Singh (No. 13980261P now JC-696977Y),
21 Apr 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allces)

Hav Santokh Singh (No. 13979839A now JC-696978F),
18 Jun 2009*

Hav Sushen Kumar Das (No. 13962289M now JC-696979K),
08 Jun 2009*

Hav Vikram Singh Chauhan (No. 13961368P now JC-696980Y),
01 Jun 2009*

Hav Ghadage Hindu Rao Parasha Ram (No. 13964500P
now JC-696981F), 01 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay and allces)

Hav Patil Ganapati (No. 13956674A now JC-697051M),
12 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jun 2009
without effect on pay and allces)

Hav Kuldeep Kumar (No. 13964556F now JC-696982K),
01 Jul 2009*

Hav Venugopalan V (No. 13964598N now JC-696983M),
01 Jul 2009*

Hav Sanjoy Saha (No. 13964632H now JC-696984P),
01 Jul 2009*

Hav Vasekar Anil Krishna (No. 13964633L now JC-696985X),
02 Jul 2009*

Hav Chandra Has (No. 13964613X now JC-696986A),
17 Jul 2009*

Hav Rameshwar Dayal (No. 13965009Y now JC-696987H),
01 Jul 2009*

Hav Mukesh Kumar (No. 13965012Y now JC-696988L),
17 Jul 2009*

Hav Om Niwas (No. 13965056W now JC-696989N), 07 Jul
2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allces)

Hav Balwan Singh (No. 13965123W now JC-697225F),
04 Aug 2009*

Hav Prem Shankar (No. 13965115X now JC-697049P),
10 Aug 2009*

Hav Mukesh Baboo (No. 13965116A now JC-696995F),
04 Aug 2009*

Hav James S (No. 13965161M now JC-697050K), 10 Aug
2009*

Hav Saji D (No. 13965515K now JC-696990H), 01 Aug
2009*

Hav Binod Kumar Jha (No. 13965652H now JC-696991L),
01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allces)

Hav Devi Dayal (No. 13955373K now JC-697226K),
31 Oct 2009*

Hav Surendra Pratap Singh (No. 13955530L now JC-697227M),
28 Oct 2009*

Hav Mahendra Ram (No. 13956482H now JC-697228P),
05 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2009
without effect on pay and allces)

Hav Raju G (No. 13957696L now JC-697229X), 04 Nov
2009*

Hav Jagpal Prasad Sukla (No. 13957843H now JC-697231P),
16 Nov 2009*

Hav Ram Bhajjo Singh (No. 13958052X now JC-697230M),
20 Nov 2009*

Hav Surendra Singh (No. 13958444L now JC-697232X),
13 Nov 2009*

Hav Brijkishor Dwivedi (No. 13959293K now JC-697233A),
06 Nov 2009*

Hav Nawab Singh (No. 13959624A now JC-697234H),
11 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allces)

Hav Surendra Nath Tiwari (No. 13961167W now JC-697349W),
09 Nov 2009*

Hav Gian Singh (No. 13962344X now JC-697235L),
12 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2009
without effect on pay and allces)

Hav Satish Kumar (No. 13962902N now JC-697236N),
16 Nov 2009*

Hav Reghu D (No. 13963090X now JC-697237W), 12 Nov
2009*

Hav Shyam Sunder Mahto (No. 13963234P now JC-697238Y),
12 Nov 2009*

Hav Shyam Lal (No. 13963578N now JC-697239F), 18 Nov
2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009
without effect on pay and allces)

Hav Sushil Kumar (No. 13965233L now JC-697294X),
14 Dec 2009*

Hav Subhash Chand (No. 13965296N now JC-697287F),
01 Nov 2009*

Hav Yogendra Singh (No. 13965651A now JC-697240W),
14 Nov 2009*

Hav Gajanand Krishna (No. 13965699N now JC-697288K),
24 Nov 2009*

Hav Shiv Kumar Soni (No. 13965700X now JC-697241Y),
19 Nov 2009*

Hav Satyvir Singh (No. 13965968P now JC-697369K),
11 Jan 2010*

Hav Patil Pravin Kumar Yeswant (No. 13966403W now
JC-697314A), 18 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009
without effect on pay and allces)

Hav Badgujjar Umakant Deochand (No. 13966405F now
JC-697289M), 10 Dec 2009*

Hav Anuruddh Singh Rana (No. 13966504K now JC-697290F),
05 Dec 2009*

Hav Dominder Singh (No. 13966567M now JC-697291K),
12 Dec 2009*

Hav L Bhaskar Reddy (No. 13966653X now JC-697292M),
14 Dec 2009*

Hav Manabendra Kherkatary (No. 13967004Y now
JC-697315H), 30 Dec 2009*

Hav S Kathiresan (No. 13967015L now JC-697316L),
18 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009
without effect on pay and allces)

Hav MK Anish Kumar (No. 13967014H now JC-697313X),
01 Jan 2010*

Hav Mahesh Gupta MA (No. 13967018Y now JC-697317N),
06 Jan 2010*

Hav Jogen Chandra Das (No. 13967059H now JC-697370Y),
11 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010
without effect on pay and allces)

Hav Parshotam Lal (No. 13960030X now JC-697244M),
04 Nov 2009*

Hav Navin Kumar (No. 13981228K now JC-697052P),
11 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009
without effect on pay and allces)

Hav Togi Koteswar Rao (No. 13966697P now JC-696992N),
26 Jun 2010*

Hav K Muthu Ramalingam (No. 13967009X now
JC-696997M), 14 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay and allces)

Hav Surendra Singh (No. 13966962A now JC-696993W),
01 Jul 2009*

Hav Shyam Dew Singh Yadaw (No. 13966964L now
JC-696994Y), 01 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allces)

Hav Uday Das (No. 13967252P now JC-697053X), 16 Sep
2009*

Hav Parale Mahadeo Mahipati (No. 1576892H now
JC-697054A), 11 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug 2009
without effect on pay and allces)

Hav Jagmohan Singh Bisht (No. 13967493P now JC-697242F),
10 Oct 2009*

Hav Nicholas Ravi P (No. 13967662L now JC-697243K),
19 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2009
without effect on pay and allces)

Hav Girish Chandra (No. 13956078N now JC-697055H),
01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allces)

Hav Birendra Shahi (No. 13956979A now JC-697058W),
01 Aug 2009*

Hav Bachchau (No. 13964519N now JC-697056L), 01 Sep
2009*

Hav Bira Kishor Swain (No. 13965185W now JC-697057N),
05 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allces)

Hav Gulab Singh (No. 13965138Y now JC-697293P), 26 Nov
2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Oct 2009
without effect on pay and allces)

KULWANT RANA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 333, dated 31st May 2010—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY INFANTRY BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Maj

Sub Uma Shanker Singh (JC-402926L), 05 May 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 May 2009)

Sub Satish Kumar (JC-402927N), 04 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 Jun 2009)

Sub Ramotar (JC-403159K), 05 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 Jun 2009)

Sub Ran Singh (JC-403070X), 01 Jun 2009

Sub Brijendra Singh (JC-402740F), 04 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 Aug 2009)

Sub Jitendra Nath Rai (JC-403181P), 01 Aug 2009

To be Sub

Nb Sub Birendra Singh (JC-403911P), 26 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Sube Singh (JC-403642N), 01 Apr 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 18 Aug 2008)

Nb Sub Rajinder Singh (JC-403806Y), 11 May 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Nov 2008)

Nb Sub Mohan Swroop (JC-403821N), 05 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Nov 2008)

Nb Sub Om Prakash Gautam (JC-403879L), 19 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jan 2009)

Nb Sub Tejvir Singh Chahar (JC-403880A), 26 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jan 2009)

Nb Sub Mahesh Yadav (JC-403742Y), 01 Mar 2009

Nb Sub Uma Shankar Singh (JC-403587H), 01 Apr 2009

Nb Sub D Rama Swamy (JC-403705L), 01 Apr 2009

Nb Sub Pira Ram (JC-403713K), 12 May 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Apr 2009)

Nb Sub Raghubir Singh (JC-403784L), 01 Apr 2009

Nb Sub Alois Xaxa (JC-403858P), 01 Apr 2009

Nb Sub Suresh Chandra (JC-403859X), 09 Apr 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Apr 2009)

Nb Sub Hari Babu Dixit (JC-403860M), 01 Apr 2009

Nb Sub Om Prakash (JC-403864H), 01 Apr 2009

Nb Sub Shree Chandra (JC-403873K), 01 Apr 2009

Nb Sub Khem Raj (JC-404049F), 01 Apr 2009

Nb Sub Jitendra Singh (JC-403866N), 01 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 May 2009)

Nb Sub Ran Singh (JC-403878H), 09 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 May 2009)

Nb Sub Shiv Ram (JC-403688W), 01 Jun 2009

Nb Sub Gerish Kumar Diwadi (JC-403867W), 15 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-403499M), 01 Jul 2009

Nb Sub Raj Singh (JC-403675Y), 01 Jul 2009

Nb Sub Anil Kumar KV (JC-403726F), 11 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Meesala Sambasiva Rao (JC-403780P), 01 Jul
2009

Nb Sub Ram Pravesh Prasad (JC-403868Y), 01 Jul 2009

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-403900H), 11 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Rajender Singh (JC-403708Y), 02 Jul 2009

Nb Sub Shiv Bilash Singh Yadava (JC-403892P), 01 Aug 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ramjeet Prasad (JC-403818N), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Lal Kishore Prasad Chaurasia (JC-403914H), 01 Mar 2009

Nb Sub (Clk) Mihir Kumar Paul (JC-403936F), 01 Apr 2009

Nb Sub (Clk) Kanwar Sahab (JC-403946L), 01 May 2009

Nb Sub (Clk) Rajendra Prasad Bhagat (JC-403947N), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Amrit Narayan Kumar (JC-403953F), 05 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2009)

RECORDS THE MIR

To be Sub

Nb Sub (GNRPT) Gurmeet Singh (JC-421141W), 10 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Raj Kishore Prasad Chaurasia (JC-420548A), 25 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (DVRAFV) Achan Singh (JC-420584L), 25 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (DVRFTVEH) Balwinder Singh (JC-420324A), 01 Feb 2010

Nb Sub (GNRPT) Gurpal Singh (JC-420525Y), 01 Feb 2010

Nb Sub (DVRFTVEH) Harbans Lal (JC-420534A), 01 Feb 2010

Nb Sub (DVRAFV) Deep Kumar (JC-420607F), 01 Feb 2010

Nb Sub (GUNNER) Narain Ram (JC-421184L), 08 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Hari Rajan G (JC-420582A), 02 Feb 2010

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

No. 334, dated 31st May 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

To be Sub Maj Master Tech Comm

Sub N Dhana Raj (JC-754463P), 01 Oct 2009

Sub Suresh Kumar (JC-754458K), 05 Oct 2009/01 Oct 2009*

Sub Mukesh Kumar Varshney (JC-754461K), 08 Oct 2009/01 Oct 2009*

To be Sub Maj Master Tech Gun

Sub Rajinder Pal (JC-754613A), 01 Oct 2009

Sub Indra Nath Jha (JC-754562X), 12 Nov 2009/01 Nov 2009*

To be Sub Maj Master Tech B Veh

Sub Krishna Pal Singh (JC-754556K), 01 Oct 2009

Sub Jai Veer Singh (JC-754660X), 02 Oct 2009/01 Oct 2009*

Sub Balki Madhukar Sakharam (JC-754611P), 05 Oct 2009/01 Oct 2009*

Sub Birpal Singh (JC-754526M), 09 Nov 2009/01 Nov 2009*

To be Sub Maj Master Tech Small Arms

Sub Kanhiya Lal (JC-757136P), 12 Oct 2009/01 Oct 2009*

Sub Kochanujan Pillai G (JC-754593X), 02 Dec 2009/01 Dec 2009*

Sub Suresh Jha (JC-754594A), 22 Dec 2009/01 Dec 2009*

Sub Harcharan Singh (JC-751416M), 03 Oct 2009/01 Oct 2009*

To be Maj Refg Technician

Sub Selvam A (JC-754128L), 01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Diwan Nath Goswami (No. 14560115W now JC-764138H), 09 Jul 2009/01 Jun 2009*

Suresh Kumar Arya (No. 14559335N now JC-764341Y), 22 Oct 2009/04 Oct 2009*

Ramesh Singh (No. 14561382K now JC-764342F), 23 Oct 2009/04 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Jaivir Singh (No. 14577804N now JC-764332X), 01 Dec 2009

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Kripa Shankar Mishra (No. 14560021Y now JC-764343K), 30 Oct 2009/04 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Sunder Lal (No. 14621536X now JC-764344M), 01 Nov 2009

Krishna A C (No. 14621714P now JC-764345P), 02 Nov 2009/01 Nov 2009*

Taduvai Srinivasul (No. 14622419Y now JC-764346X), 01 Nov 2009

Ajay Kumar Chandel (No. 14622789Y now JC-764347A), 03 Nov 2009/01 Nov 2009*

Sanjay Kumar (No. 14622714F now JC-764086X), 16 Jan 2010/01 Jul 2009*

Rajiv Ranjan (No. 14623688X now JC-764348H), 04 Nov 2009/01 Nov 2009*

Shashi Bhushan Singh (No. 14624200H now JC-764349L), 01 Nov 2009

Shaikh Allaadin Gulab (No. 14624764L now JC-764350A), 03 Nov 2009/01 Nov 2009*

Mahender Singh (No. 14624920K now JC-764351H), 06 Nov 2009/01 Nov 2009*

Dhirendra Singh (No. 14625400L now JC-764352L), 01 Nov 2009

Mane Annasaheb Mahibub (No. 14625069H now JC-764353N), 01 Nov 2009

Ramesh Singh (No. 14627017L now JC-764354W), 06 Nov 2009/01 Nov 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech C Veh

Ramesh Kumar (No. 14583074K now JC-764355Y), 01 Nov 2009

Danware Sudhakar Gangadhar (No. 14612369L now JC-764356F), 09 Nov 2009/01 Nov 2009*

Surender Pal (No. 14612861W now JC-764357K), 05 Nov 2009/01 Nov 2009*

Sant Bapu Sakham (No. 14623968L now JC-764358M), 04 Nov 2009/01 Nov 2009*

Pawar Sidheshwar Ramdas (No. 14623970H now JC-764359P), 01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Small Arms

Ramawatar Nadia (No. 14610306K now JC-764360K), 01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Daya Nand (No. 14604864P now JC-764361M), 27 Nov 2009/01 Nov 2009*

Maheshwar Gouda (No. 14604909K now JC-764362P), Dec 2009

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Basant Kumar (No. 14607800P now JC-764363X), 02 Nov 2009/01 Nov 2009*

Hav to be Nb Sub Welder

Surendra Behera (No. 14563529N now JC-764364A), 29 Oct 2009/04 Oct 2009*

K Ashokan (No. 14561209A now JC-764365H), 28 Oct 2009/04 Oct 2009*

O Rakesh Singha (No. 14567848X now JC-764366L), 22 Oct 2009/04 Oct 2009*

Rajendra Gaur (No. 14567850P now JC-764367N), 23 Oct 2009/04 Oct 2009*

Parmar Lalji Kanjibhai (No. 14567854L now JC-764368W), 03 Nov 2009/04 Oct 2009*

C Dakshina Murthy (No. 14568488Y now JC-764369Y), 09 Nov 2009/04 Oct 2009*

Subhash Singh (No. 14570847A now JC-764370N), 24 Oct 2009/04 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Machinist

Ram Niwas (No. 14573693K now JC-764371W), 26 Oct 2009/04 Oct 2009*

Mohd Iftar Khan (No. 14561044M now JC-764372Y), 22 Oct 2009/04 Oct 2009*

N Sabu V C (No. 14582159N now JC-764373F), 29 Oct 2009/04 Oct 2009*

Kumar Pal Singh (No. 14582141X now JC-764374K), 30 Oct 2009/04 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

C S Benny (No. 14586162L now JC-764226Y), 01 Sep 2009

Ram Daras Ram (No. 14580780A now JC-764262K), 01 Sep 2009

Shamsher Singh Nain (No. 14579368A now JC-764270H), 01 Oct 2009

Vijay Kumar Yadav (No. 14586394K now JC-764272N), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

K Pandian (No. 14616140K now JC-764166P), 17 Aug 2009/01 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech OPTO Electronic

Goutam Adhikary (No. 14584464Y now JC-764167P), 21 Jul 2009/05 Jul 2009*

Kamlesh Kumar Thakur (No. 14605101L now JC-764168A), 04 Aug 2009/01 Aug 2009*

Shinde Sivaji Murlidharan (No. 14614921Y now JC-764169H), 19 Aug 2009/05 Jul 2009*

Oma Ram Bishnoi (No. 14618022P now JC-764170X), 01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Dhirendra Singh (No. 14610626Y now JC-764171A),
27 Jul 2009/05 Jul 2009*

T S Vijay Simmon (No. 14619301M now JC-764172H),
18 Jul 2009/05 Jul 2009*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B-Veh

Chandira Kant Amboji (No. 14560915P now JC-764173L),
05 Jul 2009

Shionandan Prasad (No. 14561377Y now JC-764174N),
20 Jul 2009/05 Jul 2009*

Madhu K (No. 14560986W now JC-764175W), 11 Aug
2009/05 Jul 2009*

Ram Bahadur Singh (No. 14561197W now JC-764176Y),
14 Jul 2009/05 Jul 2009*

Bhagwan Singh (No. 14561198Y now JC-764177F), 29 Jul
2009/05 Jul 2009*

Rishipal Singh (No. 14561447M now JC-764179M),
01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Tech SA

Daya Ram (No. 14571116Y now JC-764180F), 23 Jul 2009/
05 Jul 2009*

Ajit Prasad (No. 14572941H now JC-764181K), 03 Aug
2009/05 Jul 2009*

Sanjay Yolmo (No. 14572951M now JC-764182M), 23 Jul
2009/05 Jul 2009*

Niroj Bhujel (No. 14572953X now JC-764183P), 05 Jul
2009

Triloki Nath Singh (No. 14573416Y now JC-764184X),
31 Jul 2009/05 Jul 2009*

Radhe Shayam Sharma (No. 14573116X now JC-764185A),
06 Aug 2009/05 Jul 2009*

Hem Chander (No. 14573197H now JC-764186H),
01 Aug 2009/05 Jul 2009*

Achche Lal Choudhary (No. 14573608W now JC-764187L),
03 Aug 2009/05 Jul 2009*

Bishnu Ram Bhorali (No. 14574650F now JC-764188N),
05 Jul 2009

To be Sub Master Tech Comn

Nb Sub Srinivasu Devakara Konda (JC-758882K), 01 Nov
2009

Nb Sub Gambhir Singh Chaudhary (JC-758894Y), 01 Dec
2009

Nb Sub Chavan Sanjeevan Ganpat (JC-758897M), 01 Dec
2009

Nb Sub Anil Kumar Mishra (JC-758895F), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech Small Arms

Nb Sub Krishna Kanta Ray (JC-759330H), 01 Dec 2009

Nb Sub Sucha Singh (JC-759328L), 01 Dec 2009

Nb Sub Indradeo Prasad (JC-759329N), 01 Dec 2009

Nb Sub Anil Kumar Velluva (JC-759332N), 01 Dec 2009

Nb Sub Chakradhar Roy (JC-759333W), 01 Dec 2009

Nb Sub Rampukar Prasad (JC-759331L), 01 Dec 2009

Nb Sub Omkar Nath (JC-759327H), 01 Dec 2009

Nb Sub Ramesh Chandra Sahu (JC-759334A), 01 Dec
2009

Nb Sub Ramesh Kumar Singh (JC-759337M), 01 Dec 2009

Nb Sub Prembeer Singh (JC-758931F), 02 Dec 2009/
01 Dec 2009*

To be Sub Dvr (MT)

Nb Sub Brij Kishore (JC-761629Y), 11 Nov 2009/23 Jun
2009*

Nb Sub Johan Sundi Purti (JC-761623M), 23 Jun 2009

Nb Sub Ayodhya Prasad (JC-762073F), 01 Dec 2009

Nb Sub Bhim Shanker Chaubey (JC-761693L), 08 Dec
2009/01 Jun 2009*

Nb Sub Amit Kumar Roy (JC-761569K), 22 Nov 2009/
01 Jun 2009*

To be Sub Tech Small Arms

Nb Sub TPL Prasad Rao (JC-760212F), 01 Jul 2009

Nb Sub Bhaskar Ram Kheechar (JC-760220A), 01 Dec
2009

Nb Sub Jaya Rajan K M (JC-760221H), 01 Dec 2009

Nb Sub Sharwan Kumar Bishnoi (JC-760222L), 01 Dec
2009

To be Sub Master Tech B Veh

Nb Sub Prem Singh (JC-758809L), 01 Dec 2009

Nb Sub Patil Rajendra Kishan (JC-758812L), 01 Dec 2009

Nb Sub Naresh Pal Malik (JC-758811H), 01 Dec 2009

Nb Sub Madan Prasad (JC-758875N), 01 Nov 2009

Nb Sub Rajiv Verma (JC-758864F), 01 Dec 2009

Nb Sub Dev Anand (JC-758810A), 01 Dec 2009

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-758807A), 03 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Meiyappan R (JC-758862W), 01 Dec 2009

Nb Sub Sunil Baran Gantait (JC-758813N), 01 Dec 2009

Nb Sub Seenivasagan G (JC-758863Y), 01 Dec 2009

Nb Sub Satpal Singh (JC-758814W), 01 Dec 2009

Nb Sub Ajay Kumar Sahu (JC-759002P), 01 Dec 2009

Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-758725X), 07 Oct 2009/
01 Oct 2009*

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Kanwar Singh (JC-759372P), 01 Dec 2009

Nb Sub Atmakuri Ramana Murty (JC-759096X), 01 Dec
2009

Nb Sub Surinder Singh (JC-759261X), 01 Dec 2009

Nb Sub K Natrajan (JC-759144M), 01 Dec 2009

Nb Sub Sumer Singh (JC-758981M), 19 Nov 2009/01 Nov
2009*

Nb Sub Shimbu Dayal Yadav (JC-758317M), 19 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Jitendra Prasad Singh (JC-759100P), 01 Dec 2009

Nb Sub K Kuppu Samy (JC-759266W), 01 Dec 2009

Nb Sub Tribuwan Thakur (JC-759264L), 01 Dec 2009

Nb Sub Daya Nidhi Mohanta (JC-759145P), 01 Dec 2009

Nb Sub Someshwar Mishra (JC-758409Y), 01 Nov 2009

Nb Sub Devi Datt (JC-759263H), 01 Dec 2009

Nb Sub Jagbir Singh (JC-759371M), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech Electronic

Nb Sub Govind Singh Bhandari (JC-758997X), 01 Dec 2009

To be Sub Metallurgy

Nb Sub Kamal Deo Prasad (JC-760414H), 20 Nov 2009/
01 Oct 2009*

To be Sub Opr & Dvr (Rec)

Nb Sub Birendra Kumar Pandey (JC-754570W), 19 Nov
2009/01 Nov 2009*

To be Sub Welder

Nb Sub Sultan Singh (JC-760597K), 01 Nov 2009

Nb Sub Birendra Kumar (JC-760596F), 10 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Chandra Singh (JC-760535K), 03 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Hari Dhani Singha (JC-760511A), 10 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Devendra Kumar Sharma (JC-760594W), 01 Dec
2009

To be Sub SKT

Nb Sub Satya Vir (JC-759401Y), 23 Nov 2009/01 Nov
2009*

Nb Sub Sukh Bir Singh (JC-759402F), 19 Nov 2009/
01 Nov 2009*

Nb Sub Om Prakash Tiwari (JC-758654F), 30 Nov 2009/
01 Jul 2009*

To be Sub Auto Tech A Veh

Nb Sub Ram Kishan (JC-761674A), 23 Nov 2009/23 Jun
2009*

Nb Sub Satya Narayan Dwivedi (JC-762117N), 01 Oct
2009/01 Jul 2009*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-761005F), 23 Jun 2009

To be Sub Master Tech Radar

Nb Sub Prem Shankar Vishwakarma (JC-759000K), 08 Dec
2009/01 Dec 2009*

Nb Sub Abani Mandal (JC-758998A), 04 Dec 2009/01 Dec
2009*

Nb Sub Saji Varughese (JC-758999H), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech Gun

Nb Sub Kanagaraj C (JC-758995M), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech Opto Electronics

Nb Sub Shaitan Ram Bishnoi (JC-758851K), 01 Dec 2009

Nb Sub Achyuta Pradhan (JC-758888L), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech A Veh

Nb Sub Abhey Singh (JC-758860L), 01 Oct 2009

Nb Sub Umesh Chandra Tripathi (JC-758817K), 01 Dec
2009

Nb Sub Jaya Kumar K (JC-758993F), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech GCE

Nb Sub Manikant Upadhyay (JC-759001M), 01 Dec 2009

To be Sub Tech Radar

Nb Sub Handry Barua (JC-761852X), 09 Nov 2009/01 Jul
2009*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Manoj Kumar Sharma (No. 14585467Y now JC-764117M),
01 Aug 2009

Nemanna Y Tagri (No. 14585829P now JC-764118P),
01 Aug 2009

Purshotam Singh (No. 14585834A now JC-764119X),
01 Aug 2009

Nag Singh Panwar (No. 14585866H now JC-764121P),
01 Aug 2009

Gheesa Ram Choudhary (No. 14585875K now JC-
764122X), 01 Aug 2009

Bhagwan Singh Shekhawat (No. 14585882A now JC-
764123A), 01 Aug 2009

Girdhari Lal Sharma (No. 14584571A now JC-764125L),
01 Aug 2009

Charan Singh (No. 1453895Y now JC-764126N), 01 Aug
2009

Mohan Singha (No. 14585847X now JC-764127W),
01 Aug 2009

Hav To be Nb Sub SKT

Krishan Kumar (No. 14604870H now JC-764129F), 01 Aug 2009

Ramesh Singh (No. 14604872N now JC-764130W), 01 Aug 2009

Ravindra Pal Singh (No. 14604896X now JC-764131Y), 01 Aug 2009

Ravindra Kumar Singh (No. 14604914P now JC-764132F), 01 Aug 2009

Lal Mohan Konar (No. 14604918L now JC-764133K), 01 Aug 2009

Khem Chand (No. 14604924Y now JC-764134M), 01 Aug 2009

Swapan Kumar Sharma (No. 14605079L now JC-764135P), 01 Aug 2009

Anand Mohan Mandal (No. 14600375M now JC-764163F), 17 Jul 2009/05 Jul 2009*

Anil Kumar (No. 14601791H now JC-764164K), 25 Jul 2009/05 Jul 2009*

Rajender Singh (No. 14604854L now JC-764165M), 27 Jul 2009/05 Jul 2009*

Hav To be Sub Master Tech (Net Working)

Mohinder Singh Gill (No. 14604852A now JC-764103M), 01 Aug 2009

Ramadasan K (No. 14612876Y now JC-764104P), 01 Aug 2009

Hav To be Nb Sub Auto Tech B-Veh

Martand Singh (No. 14558804Y now JC-764136X), 06 Jul 2009/10 May 2009*

Ghan Shyam Singh (No. 14558831H now JC-764137A), 04 Jul 2009/10 May 2009*

C Arjunan (No. 14560981X now JC-763848N), 24 Jul 2009/05 Jul 2009*

Hav To be Nb Sub Auto Tech C-Veh

Surendra Nath Pandey (No. 14562900L now JC-764139L), 06 Jul 2009/05 Jul 2009*

Deepak Das (No. 14562818W now JC-764140A), 10 Jul 2009/05 Jul 2009*

Mahesh Kumar (No. 14563010X now JC-764141H), 01 Aug 2009

Hav To be Nb Sub DW

Santosh Kumar Sar (No. 14572956L now JC-764154A), 15 Jul 2009/05 Jul 2009*

Ramesh Chandra (No. 14574701K now JC-764155H), 16 Jul 2009/05 Jul 2009*

Namuna Roy (No. 14563604M now JC-764156L), 14 Jul 2009/05 Jul 2009*

Jai Prakash Rai (No. 14582711H now JC-764157N), 14 Jul 2009/05 Jul 2009*

Perni Bhusankara Rao (No. 14582955W now JC-764158W), 01 Aug 2009

Hare Ram Singh (No. 14581917N now JC-764159Y), 01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech B-Veh

Pratap Narayan (No. 14603156W now JC-764143N), 15 Jul 2009/07 May 2009*

Radha Krishnan PK (No. 14610897W now JC-764144W), 16 Jul 2009/05 Jul 2009*

Mahesha AP (No. 14622042A now JC-764145Y), 21 Jul 2009/01 Jun 2009*

Sanjay Kumar Singh (No. 14621362W now JC-764146F), 01 Aug 2009

Salgar Balasahib Jalinda (No. 14622313M now JC-764148M), 01 Aug 2009

Multi Prasad De (No. 14622493A now JC-764149P), 01 Aug 2009

Kancharla Srinivasa Rao (No. 14622424K now JC-764150K), 01 Aug 2009

Pawan Kumar Sharma (No. 14622785H now JC-764151M), 01 Aug 2009

Palanivel R (No. 14624821F now JC-764152P), 14 Jul 2009/01 Jun 2009*

Subhash Chandra Biswas (No. 14621948Y now JC-764153X), 15 Jul 2009/01 May 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

B Satya Narayan (No. 14618804L now JC-764105X), 03 Jul 2009/07 Jun 2009*

Ashok Kumar (No. 14610204N now JC-764106A), 04 Jul 2009/07 Jun 2009*

Sunder Kumar (No. 14619612A now JC-764107H), 04 Jul 2009/07 Jun 2009*

Pachayappan TE (No. 14620459F now JC-764108L), 03 Jul 2009/07 Jun 2009*

Madhu Sudan (No. 14620519L now JC-764109N), 13 Jul 2009/07 Jun 2009*

Baiju Kumar S (No. 14620561K now JC-764110H), 25 Jul 2009/07 Jun 2009*

P Anantha Pandian (No. 14622026H now JC-764112N), 03 Jul 2009/07 Jun 2009*

Raja Rao Anga (No. 14622618M now JC-764113W), 23 Jul 2009/07 Jun 2009*

Sujit Kumar Paul (No. 14622666M now JC-764114Y),
28 Jun 2009/07 Jun 2009*

Ram Mehar (No. 14622217P now JC-764115F), 12 Jul 2009/
07 Jun 2009*

Anil Kumar Choudhary (No. 14622750M now JC-764116K),
04 Jul 2009/07 Jun 2009*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Ashok Kumar (No. 14570890F now JC-763088W),
01 Apr 2009

Hav to be Nb Sub PTRDECTR

Om Parkash Pandey (No. 14562433Y now JC-764160N), 27
Jul 2009/05 Jul 2009*

Hav to be Nb Sub Machinist

Pema Ram (No. 14568234F now JC-764161W),
01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Saji Kumar PK (No. 14641287L now JC-764162Y),
13 Jul 2009/05 Jul 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Subhash Chandra Dhara (No. 14621841K now JC-
764142L), 01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech AVF (AVN)

Ajit Kumar B (No. 14617111F now JC-764102K),
01 Jul 2009

Rajendra Singh (No. 14617600M now JC-763706W),
18 Jul 2009/01 Jul 2009*

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Master Tech OPTO Electronic

Azaz Ahmed Khan (No. 14614506X now JC-764207N), 05
Jul 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech C Veh

Arun Kumar Srivastava (No. 14612880F now JC-
764208W), 10 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Kannan S (No. 14623260L now JC-764209Y), 01 Sep 2009

Gadade Bharat Abasaheb (No. 14623283M now JC-
764210N), 01 Sep 2009

Braj Raj (No. 14622920L now JC-764211W), 03 Sep 2009/
01 Sep 2009*

Laxmidhar Behera (No. 14623528X now JC-764212Y), 01
Sep 2009

Shushil Kumar Pandey (No. 14623422L now JC-764213F),
01 Sep 2009

Niraj Kumar Upadhyay (No. 14624065A now JC-764214K),
01 Sep 2009

Madan Singh Chauhan (No. 14624721W now JC-
764215M), 01 Sep 2009

Vinay Kumar Pandey (No. 14626179K now JC-764216P),
01 Sep 2009

Vinayak (No. 14625702X now JC-764217X), 01 Sep 2009

Bhabotosh Kumar (No. 14625903W now JC-764218A), 01
Sep 2009

Sharavan Kumar Pandey (No. 14601207A now JC-
764219H), 01 Sep 2009

Nemade Vilas Motiram (No. 14601726H now JC-764220X),
01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech (Net Working)

Jagdale Satish S (No. 14615765M now JC-764221A), 01
Sep 2009

Vishta Puransingh M Singh (No. 14604318H now JC-
764222H), 01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Gajraj Singh (No. 14561446K now JC-764223L), 20 Aug
2009/10 May 2009*

Shailendra Barman (No. 14561603L now JC-764189W), 19
Sep 2009/01 Aug 2009*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Prayag Prasad (No. 14577371F now JC-764224N),
20 Aug 2009/01 Aug 2009*

Shambhu Nath Mohanta (No. 14586065N now JC-
764225W), 01 Sep 2009

Apurba Baran Das (No. 14586557M now JC-764227F), 01
Sep 2009

Rajesh Kumar (No. 14584875X now JC-764228K),
01 Sep 2009

Kheta Ram Dudi (No. 14585870L now JC-764229M), 01
Sep 2009

Kumar Pal Singh (No. 14578487K now JC-764230F), 01
Sep 2009

Hari PT (No. 14579646H now JC-764231K), 19 Sep 2009/
01 Sep 2009*

Rajendra Yadav (No. 14570549K now JC-764232M), 01
Sep 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh

Ramraj Singh (No. 14557975Y now JC-764233P),
15 Aug 2009/01 Aug 2009*

Bidhan Talukdar (No. 14558509W now JC-764234X), 13
Aug 2009/01 Aug 2009*

Santosh Kumar Singh (No. 14558805F now JC-764235A),
14 Aug 2009/01 Aug 2009*

Kamlesh Kumar Maurya (No. 14559127Y now JC-764236H), 01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Shaik Imam (No. 14561404X now JC-764237L), 11 Aug 2009/01 Aug 2009*

Manju Ram Adhikari (No. 14561506N now JC-764238N), 01 Sep 2009

Shish Ram (No. 14558533M now JC-764239W), 01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech A Veh

Shila Nath Singh (No. 14564641M now JC-764243Y), 01 Sep 2009

Nagendra Singh (No. 14564715W now JC-764244F), 01 Sep 2009

Narendra Pal (No. 14565069W now JC-764245K), 01 Sep 2009

Sushil Kumar (No. 14563480H now JC-764246M), 01 Oct 2009

Vir Bhan (No. 14559877X now JC-764247P), 05 Oct 2009/01 Oct 2009*

To be Sub Maj Master Tech (Armr)

Sub Surendra Kumar Roy (JC-754891N), 20 Jan 2010/01 Dec 2009*

To be Sub Maj Tech Comn

Sub Sulakhan Singh (JC-754280Y), 04 Jan 2010/01 Jan 2010*

Sub Dalbir Singh (JC-756423M), 15 Jan 2010/01 Jan 2010*

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub Suresh Singh (JC-751772M), 02 Jan 2010/01 Jan 2010*

Sub Rajiv Kumar Singh (JC-751685Y), 01 Jan 2010

To be Sub Maj Master Tech Comn

Sub Rama Kant (JC-751896F), 01 Jan 2010

Sub Subhash Chander Saini (JC-751897K), 01 Jan 2010

Sub Puran Lal (JC-752584X), 01 Jan 2010

Sub Vijaya Kumar P S (JC-758319X), 01 Jan 2010

To be Sub Maj DW

Sub Santosh Kumar (JC-759443L), 04 Jan 2010/01 Jan 2010*

To be Sub Maj SKT

Sub Lakshman Tiwari (JC-751295W), 01 Jan 2010

Sub Kanwar Pal Singh (JC-750812W), 01 Jan 2010

To be Sub Maj Opr & Dvr (Rec)

Sub C Rama Chandrudu (JC-751485H), 18 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Sub Master Tech A Veh

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-761272H), 16 Jun 2009/01 Apr 2009*

Nb Sub Jiwan Singh Rautela (JC-758815Y), 04 Dec 2009/01 Dec 2009*

Nb Sub Jaipal Singh (JC-758902M), 06 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Arge Ganapati Bhim Rao (JC-758903P), 07 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Awdesh Singh (JC-758907L), 01 Feb 2010

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Soran Singh (JC-759260P), 01 Dec 2009

Nb Sub Jai Prakash Verma (JC-759398K), 01 Jan 2010

Nb Sub Sagadevan N (JC-759399M), 01 Jan 2010

Nb Sub Mohd Yaha Khan (JC-759400W), 11 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub C Muniyandi (JC-759142F), 01 Dec 2009

Nb Sub Rajendra Prasad Mishra (JC-759516M), 01 Feb 2010

Nb Sub Jagdish Chandra Chandola (JC-759484P), 01 Feb 2010

To be Sub SKT

Nb Sub Rakesh Mohan Singh (JC-758983X), 01 Sep 2009

Nb Sub Ram Asrey (JC-760142N), 15 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Satyavir Singh (JC-760143W), 15 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Rama Krishnan S (JC-758838A), 01 Aug 2009

Nb Sub Bhuteshwar Chauhan (JC-759275X), 24 Oct 2009/01 Oct 2009*

Nb Sub Madan Lal Yadav (JC-759369P), 24 Nov 2009/01 Nov 2009*

Nb Sub Balwinder Singh (JC-760572X), 27 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Mohan Singh (JC-760573A), 27 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Herpal Singh (JC-760574H), 27 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Sonvir Singh (JC-750903N), 01 Feb 2010

To be Sub Tech Armr

Nb Sub Udaya Bhan (JC-760223N), 15 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Rajan C (JC-759336K), 15 Dec 2009/01 Dec 2009*

Nb Sub Shiw Bhagat (JC-760224W), 01 Feb 2010

To be Sub Master Tech Small Arms

Nb Sub Hari Chand (JC-758930Y), 03 Dec 2009/01 Dec 2009*

Nb Sub Sanal R (JC-759335F), 01 Dec 2009

To be Sub Master Tech Comm

Nb Sub D K Palanivel (JC-758893W), 01 Dec 2009

Nb Sub R Kumar (JC-759015M), 11 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Sukhade Anant Tatoba (JC-758898P), 13 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Samaun Seikh (JC-758901K), 04 Jan 2010/01 Jan 2010*

To be Sub Auto Tech B Veh

Nb Sub Shafqat Jawed (JC-761562A), 17 Dec 2009/19 Jul 2009*

To be Sub Musician

Nb Sub Ram Chandra Verma (JC-760836N), 16 Jun 2009/01 Mar 2009*

To be Sub RT Pandit

Nb Sub Dipankar Singh (JC-753871N), 14 Nov 2009/01 Nov 2009*

*(Gtd ante dated seniority)

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav (AT) W S Shantaram (No. 6932349M now JC-728672P), 02 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) Param Lal (No. 6932541W now JC-728673X), 01 Oct 2009

Hav (AT) B K Mohalik (No. 6932818K now JC-728674A), 01 Nov 2009

Hav Clk (IM) Pawan Kumar (No. 6920848P now JC-728675H), 01 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) Kab Rao (No. 6922466K now JC-728676L), 10 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) Ashok Kumar (No. 6924161H now JC-728677N), 01 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(SD) N K Mishra (No. 6924324L now JC-728678W), 05 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(SD) M Pandia Raj (No. 6924349X now JC-728679Y), 04 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) M P Nayak (No. 6924415P now JC-728680N), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) T N Choubey (No. 6924417A now JC-728681W), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) D Datta (No. 6924420A now JC-728682Y), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) N Sahu (No. 6924421H now JC-728683F), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) S Azad (No. 6924445M now JC-728684K), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) A K Das (No. 6924447X now JC-728685M), 07 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(SD) Ramesh Babu L N (No. 6924519W now JC-728686P), 01 Dec 2009

Hav Clk(SD) B S Thakur (No. 6924543M now JC-728687X), 01 Dec 2009

Hav Clk(SD) A K Patel (No. 6924585Y now JC-728688A), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) G Mari Muthu (No. 6924613A now JC-728689H), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) N Thomas (No. 6924614H now JC-728690X), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) S C Mondal (No. 6924639P now JC-728691A), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) Dilip Kole (No. 6924642P now JC-728692H), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) R Das (No. 6924655M now JC-728693L), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) A K Chaturvedi (No. 6924686M now JC-728694N), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) Maha Sukh (No. 6924705M now JC-728695W), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) D Prasad (No. 6924760H now JC-728696Y), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) R K Das (No. 6924767M now JC-728697F), 01 Dec 2009

Hav Clk(IM) Baljit (No. 6924771P now JC-728698K), 01 Jan 2010

Hav Clk(SD) Roop Lal (No. 6924827W now JC-728699M), 01 Jan 2010

Hav (SKT Sig) Gayar Singh (No. 6923854N now JC-728700W), 01 Oct 2009

Hav (SKT AMN) Ram Briksh (No. 6923909M now JC-728701Y), 01 Nov 2009

Hav (SKT AMN) R S Verma (No. 6923920L now JC-728702F), 11 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT AMN) Subachan (No. 6923934L now JC-728703K), 01 Nov 2009

Hav (SKT AMN) Surajdin (No. 6923941F now JC-728704M), 01 Dec 2009

Hav (SKT GS&C) Dinesh Singh (No. 6923949N now JC-728705P), 01 Dec 2009

Hav (SKT AMN) S Kumar (No. 6923954Y now JC-728706X), 01 Dec 2009

Hav (SKT AMN) Ganga Sagar (No. 6923962X now JC-728707A), 01 Dec 2009

Hav (SKT AMN) Shiv Shankar (No. 6923976X now JC-728708H), 01 Dec 2009

Hav (SKT AMN) Awadhesh Singh (No. 6923966N now JC-728709L), 01 Dec 2009

Hav (SKT Sig) Narender Singh (No. 6924087M now JC-728710A), 01 Dec 2009

Hav (SKT GS&C) Karam Chand (No. 6924090M now JC-728711H), 01 Dec 2009

Hav (SKT Sig) Parkash (No. 6924095L now JC-728712L), 01 Dec 2009

Hav (SKT Sig) Laxmi Singh (No. 6924096N now JC-728713N), 01 Dec 2009

Hav (SKT GS&C) K S Rauthela (No. 6924190X now JC-728714W), 01 Dec 2009

Hav (SKT AMN) M P Chamoli (No. 6924193L now JC-728715Y), 11 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) G K Rao (No. 6924204M now JC-728716F), 01 Dec 2009

Hav (SKT GS&C) K S Babu (No. 6924206X now JC-728717K), 01 Jan 2010

Hav (SKT GS&C) K Shanmukham (No. 6924207A now JC-728718M), 01 Jan 2010

Hav (SKT GS&C) T L Narayana (No. 6924208H now JC-728719P), 01 Jan 2010

Hav (SKT GS&C) Y V S Narayana (No. 6924211H now JC-728720K), 01 Jan 2010

Hav (SHT) Satbir Singh (No. 6921003H now JC-728721M), 05 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) Ram Phal (No. 6920984L now JC-728722P), 25 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) J Bera (No. 6922746X now JC-728723K), 01 Oct 2009

Hav (SHGD) Rajendra Kumar (No. 6922815H now JC-728724A), 01 Nov 2009

Hav (SHGD) Kalyan Singh (No. 6922822Y now JC-728725H), 01 Dec 2009

Hav (SHGD) Chander Has (No. 6922854F now JC-728726L), 01 Dec 2009

Hav (SHGD) Ghan Shyam (No. 6922855K now JC-728727N), 01 Dec 2009

Hav (SHGD) N C Mondal (No. 6922876A now JC-728728W), 01 Dec 2009

Hav (SHGD) U S Borgave (No. 6922889X now JC-728729Y), 02 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) Sajjan Singh (No. 6922954M now JC-728730N), 01 Jan 2010

Hav (AT) Y P Yadav (No. 6932529P now JC-728731W), 01 Oct 2009

Hav (AT) B Mohanty (No. 6932838X now JC-728732Y), 01 Jan 2010

Hav (AT) D S Tomar (No. 6932116L now JC-728733F), 01 Jan 2010

Hav (AT) N Karmakar (No. 6932386A now JC-728734K), 01 Jan 2010

Hav (AT) R P Shaw (No. 6932817F now JC-728735M), 01 Feb 2010

Hav Clk(IM) S L Ram (No. 6924212L now JC-728736P), 29 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk(IM) Sobaran Singh (No. 6921740K now JC-728737X), 01 Jan 2010

Hav Clk(SD) Samey Singh (No. 6924813W now JC-728738A), 01 Jan 2010

Hav Clk(SD) Rajvir (No. 6924821P now JC-728739H), 01 Jan 2010

Hav Clk(SD) Dharam Singh (No. 6924822X now JC-728740X), 01 Jan 2010

Hav Clk(SD) Babu Ram (No. 6924826N now JC-728741A), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) M Boopalan (No. 6924946M now JC-728742H), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) M Venkitachalapathi (No. 6924951X now JC-728743L), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) Neelamegam P (No. 6924954L now JC-728744N), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) Rama Murthy S (No. 6924960Y now JC-728745M), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) C Saranga Pani (No. 6924973W now JC-728746Y), 01 Jan 2010

Hav Clk(IM) G Moorthy (No. 6924978P now JC-728747F), 01 Jan 2010

- Hav Clk(IM) G T Bapu (No. 6925054N now JC-728748K), 01 Jan 2010
- Hav Clk(IM) C B Kallapa (No. 6925063P now JC-728749M), 01 Jan 2010
- Hav Clk(SD) R Nara Simmon (No. 6925079A now JC-728750F), 01 Jan 2010
- Hav Clk(IM) Arvind Kumar (No. 6925122W now JC-728751K), 01 Jan 2010
- Hav Clk(SD) M J Naidu (No. 6925208P now JC-728752M), 01 Jan 2010
- Hav Clk(IM) A K Nath (No. 6925299K now JC-728753P), 01 Jan 2010
- Hav Clk(IM) R Chivatekar (No. 6925308A now JC-728754X), 01 Feb 2010
- Hav Clk(IM) H Panicker G (No. 6925316Y now JC-728755A), 01 Feb 2010
- Hav Clk(IM) R B Mahto (No. 6925319M now JC-728756H), 06 Feb 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Clk(IM) Dondu D'Souza (No. 6925325A now JC-728757L), 09 Feb 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Clk(IM) H Suthar (No. 6925336M now JC-728758N), 01 Feb 2010
- Hav (SKT AMN) P Sharma (No. 6923953W now JC-728759W), 16 Dec 2009*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)
- Hav (SKT GS&C) G K Mishra (No. 6924210A now JC-728760L), 01 Jan 2010
- Hav (SKT GS&C) Farooq Hasan (No. 6924220K now JC-728761N), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) P D Narayan (No. 6924264F now JC-728762W), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) K M Shankar (No. 6924265K now JC-728763Y), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) K S Dinkar (No. 6924271X now JC-728764F), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) SLKD Rao (No. 6924277Y now JC-728765K), 01 Jan 2010
- Hav (SKT MT) S D B Rao (No. 6924280Y now JC-728766M), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) N G D T Limbaji (No. 6924281F now JC-728767P), 01 Jan 2010
- Hav (SKT WEP) K D Rao (No. 6924285X now JC-728768X), 01 Feb 2010
- Hav (SKT WEP) S R Vodoori (No. 6924286A now JC-728769A), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) A K Dhimman (No. 6924292N now JC-728770P), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) N D Sopanrao (No. 6924305A now JC-728771X), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) S S Narayan (No. 6924306H now JC-728772A), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) S S Kushwah (No. 6924307L now JC-728773H), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) D N G Rao (No. 6924312W now JC-728774L), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) U S Ojha (No. 6924309W now JC-728775N), 01 Feb 2010
- Hav (SKT MT) Randhir Singh (No. 6924315K now JC-728776W), 01 Feb 2010
- Hav (SKT GS&C) Inderjit Yadav (No. 6922028F now JC-728777Y), 01 Feb 2010
- Hav (SKT WEP) S V Anna (No. 6924326W now JC-728778F), 01 Feb 2010
- Hav (SKT WEP) M A Namdeo (No. 6924327Y now JC-728779K), 01 Feb 2010
- Hav (SKT ENGR) P Swami Nathan (No. 6924379P now JC-728780Y), 01 Feb 2010
- Hav (SKT ENGR) S K Faruk Jamal (No. 6924442Y now JC-728781F), 08 Feb 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Hav (SHGD) T P Tiwari (No. 6922928L now JC-728782K), 01 Jan 2010
- Hav (SHGD) Bhopal Singh (No. 6922991A now JC-728783M), 01 Feb 2010
- Hav (SHGD) Surender Singh (No. 6922999M now JC-728784P), 01 Feb 2010
- Hav ARTSN(WW) C B Upadhya (No. 6921535H now JC-728785X), 01 Jan 2010
- Hav (PTRDECTR) Lallan Prasad (No. 6921597H now JC-728786A), 01 Jan 2010

N K KASHMIRA
Under Secy